



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 394]
No. 394]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 17, 1979/अग्रहायण 26, 1901
NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 17, 1979/AGRAHAYANA 26, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि और सिंचाई मंत्रालय
(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1979

सां०कां०पि० 695(अ)/आ०व०/चीनी—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चीनी (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 को तुरन्त प्रसारी रूप में विखण्डित करती है।

[सं० 1-51/79-एनपीवाई (डेस्क II)]

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION
(Department of Food)

ORDERS

New Delhi, the 17th December, 1979

G.S.R. 695(E)/Ess.Com./Sugar.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby rescinds the Sugar (Price Control) Order, 1979, with immediate effect.

[No. 1-51/79-SPY(DESK-II)]

सां०कां०पि० 696(अ)/आ०व०/चीनी—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.—(1) इस आदेश का नाम लेवी चीनी प्रदाय (नियंत्रण) आदेश, 1979 है।

994GI/79—1

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. लेवी चीनी का प्रदाय करने के लिए निदेश जारी करने की शक्तियाँ—(1) केन्द्रीय सरकार समय-समय पर आदेश द्वारा किसी भी उत्पादक या मध्यवर्ती व्यापारी को ऐसे प्रकार या श्रेणी की और इतनी मात्राओं में लेवी चीनी का,

(क) ऐसे क्षेत्रों या बाजारों में ऐसे व्यक्तियों या संगठनों को; या

(ख) ऐसी राज्य सरकारों को,

जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी कीमत पर जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा 3(ग) के अधीन व्यवहारित कीमत से अधिक नहीं है, प्रदाय करने के लिए निदेश दे सकती।

स्पष्टीकरण—लेवी चीनी से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (च) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिग्रहीत चीनी अभिप्रेत है।

(2) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा निदेश दे सकती कि उपखण्ड (1) के अधीन कोई निदेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग, कृषि और सिंचाई मंत्रालय, खाद्य विभाग, नई दिल्ली के चीनी निदेशालय के निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी एक या अधिक द्वारा भी किया जा सकेगा; अर्थात् :—

1. मुख्य निदेशक (चीनी)।

2. अपर मुख्य निदेशक।

3. एक निदेशक।

4. एक उप निदेशक।

(1429)

(3) जहाँ किसी उत्पादक या मान्यताप्राप्त व्यवहारी को उपखण्ड (1) या (2) के अधीन किसी राज्य सरकार को लेबी चीनी के प्रदाय के लिए कोई निदेश जारी किया गया है वहाँ वह राज्य सरकार या तो स्वयं चीनी का परिधान लेने का प्रबंध कर सकेगी या चीनी का परिधान लेने के लिए, किसी व्यक्ति, संगठन या प्राधिकारी को नामनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(4) यदि उपखण्ड (2) के अधीन लेबी चीनी का परिधान लिया जाता है तो वह,—

(क) जहाँ ऐसी चीनी का परिधान राज्य सरकार ने लिया है वहाँ, ऐसी रीति में जैसी राज्य सरकार ठीक समझे;

(ख) किसी अन्य दशा में ऐसे निदेशों के अनुसार, जैसे कि राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाएं,

भंडारित, वितरित या विक्रीत की जा सकेगी।

[सं० 1-51/79(1)एस०पी०आई०(क)]

G.S.R. 696(E)/Ess.Com./Sugar.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order, namely :—

1. Short title, extent and commencement.—(1) his Order may be called the Levy Sugar Supply (Control) Order, 1979.

(2) It extends to the whole of India.

(3) It shall come into force at once.

2. Powers to Issue Directions to Supply Levy Sugar.—(1) The Central Government may, from time to time, by order issue directions to any producer or recognised dealer to supply levy sugar of such type or grade and in such quantities,—

(a) to such persons or organisations, in such areas or markets; or

(b) to such State Governments, as may be specified in the order and at a price not exceeding the price determined under sub-section (3c) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955.

Explanation.—“Levy” sugar means the sugar requisitioned by the Central Government under clause (f) sub-section (2) of Section 3 of the Essential Commodities Act 1955.

(2) The Central Government may by notified Order direct that the power to issue any direction under sub-clause (1), shall be exercisable also by any or more of the following officers in the Directorate of Sugar, Ministry of Agriculture & Irrigation, Department of Food, New Delhi :—

1. The Chief Director (Sugar).

2. The Additional Chief Director.

3. A Director.

4. A Deputy Director.

(3) Where any direction is issued to any producer or recognised dealer under sub-clause (1) or (2) for the supply of levy sugar to any State Government, that State Government may either arrange to take delivery of the sugar by itself or nominate any person, organisation or authority to take delivery of the sugar.

(4) Any levy sugar taken delivery of under sub-clause (3) may be stored, distributed or sold—

(a) where such sugar has been taken delivery of by the State Government in such manner as the State Government deems fit;

(b) in any other case, in accordance with such directions as may be issued by the State Government or by an officer or authority empowered by the State Government in this behalf.

[No. 1-51/79-SPY(DESK-II)(A)]

प्रधितृषनाएं

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1979

सां०का०वि० 697(अ)/आ०ब०/चीनी—केन्द्रीय सरकार, लेबी चीनी प्रदाय (नियंत्रण) आदेश, 1979 के खण्ड 2 के उपखण्ड (2) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उपखण्ड 2 के उपखण्ड (1) के अधीन निदेश देने की शक्ति का प्रयोग चीनी निदेशाज्ञय, कृषि और सिंचाई मंत्रालय, खाद्य विभाग का मुख्य निदेशक, अपर मुख्य निदेशक, निदेशक या उपनिदेशक भी कर सकेगा।

[सं० 1-51/79-एम० पी० आई०(ख)]

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 17th December, 1979

G.S.R. 697(E)/Ess.Com./Sugar.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (2) of clause 2 of the Levy Sugar Supply (Control) Order, 1979 the Central Government hereby directs that the power to issue any direction under sub-clause (1) of the said clause 2 shall be exercisable also by the Chief Director, Additional Chief Director, a Director or a Deputy Director in the Directorate of Sugar, Ministry of Agriculture and Irrigation, Department of Food.

[No. 1-51/79-SPY(DESK-II)(B)]

सां०का०वि० 698(अ)/आ०ब०/चीनी—केन्द्रीय सरकार, चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 5 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि चीनी का कोई भी उत्पादक, जिससे इसके द्वारा जारी किए गए निदेश के अधीन वह घरेलू की गई है कि वह लेबी चीनी का प्रदाय, किसी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक या किसी ऐसी सरकार या प्रशासक के नामनिर्देशित को करे, ऐसी सरकार, ऐसे प्रशासक या नामनिर्देशित से, उस दशा में जिसमें कि परेषण का रेल से भेजा जाना अपेक्षित है, ऐसा परेषण भेजने से पूर्व प्रतिमघन के तौर पर 15 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक की राशि न तो मांगेगा और न प्राप्त करेगा।

[सं० 1-51/79-एस०पी०आई०(ग)]

G.S.R. 698(E)/Ess.Com./Sugar.—In exercise of the powers conferred by clause 5 of the Sugar (Control) Order, 1966, the Central Government hereby directs that no producer of sugar, who is required under the direction issued by it to supply levy sugar to a State Government or an Administrator of a Union Territory or a nominee of any such Government or Administrator, shall demand or receive from such Government, Administrator or nominee, any amount in excess of Rs. 15.00 per quintal by way of advance prior to the despatch of the consignment where such consignment is required to be despatched by rail.

[No. 1-51/79-SPY(DESK-II)(C)]

आदेश

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1979

सां०का०वि० 699(अ)/आ०ब०/चीनी—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (3ग) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इस आदेश का नाम चीनी (1978-79 में उत्पादित चीनी कीमत प्रवर्धन) आदेश, 1979 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1978-79 मौसम में उत्पादित चीनी की कीमत.—केन्द्रीय सरकार इससे उपाखण्ड अनुसूची 1 और 2 के लम्ब (2) से (7) तक में विनिर्दिष्ट कीमतों को उन कीमतों के रूप में नियत करती है जो कि

उसमें उल्लिखित भारतीय चीनी मानक (भा०ची०मा०) श्रेणियों की उस चीनी के लिए देय है जो ए' टिबल नए टाट के बोरे में पैक है और उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित सभी निर्वात—कटाह चीनी कारखानों द्वारा, अर्थात्, इससे उपाखंड अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट कारखानों द्वारा, 1978-89 में तैयार की गई है और केन्द्रीय सरकार द्वारा, लेवी चीनी प्रदाय (नियंत्रण) आदेश, 1979 के खण्ड 2 के उपखण्ड (1) के अधीन किए गए आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों, राज्य सरकारों के संगठनों को, क्रेता के विकल्प पर, क्रमशः (i) रेल बैगनों में, और (ii) क्रेता की गाड़ियों, लारियों या परिवहन के अन्य साधनों में, कारखाना द्वार/कारखाना गोदाम पर, परिवान के लिए अपेक्षित है।

परन्तु जहाँ कोई चीनी कारखाना निम्नतम रेल स्टेशन से या रेल के किसी बाहरी अधिकरण से या कारखाने के बाहर गोदाम से, जिसका रेल सम्पर्क नहीं है, पाँच किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है वहाँ उत्पादक, रेल द्वारा माल भेजे जाने की दशा में, चीनी कारखाने और ऐसे रेल स्टेशन या रेल के बाहरी अधिकरण के बीच या गोदाम द्वार पर परिवान की दशा में, चीनी कारखाने और ऐसे गोदाम के बीच की पाँच किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए प्रति बिंदुल चीनी पर, प्रति किलोमीटर एक पैसे की दर से अतिरिक्त प्रभार ले सकेगा।

स्पष्टीकरण:—इस आदेश में,—

(क) पूर्वोक्त अनुसूची 1 और 2 के स्तम्भ (2) से (7) तक में विनिर्दिष्ट कीमतों के अन्तर्गत, उत्पाद शुल्क/अतिरिक्त उत्पाद-

शुल्क, जो विक्रय कर के बदले में है और विशेष उत्पाद शुल्क नहीं है, इसकी वसूली उत्पादक सुसंगत समय पर प्रदत्त वर पर, इस आदेश द्वारा अवधारित कीमतों के अतिरिक्त कर सकेगा :

(ख) पूर्वोक्त अनुसूची 1 के स्तम्भ (2) से (7) तक में विनिर्दिष्ट कीमतों के अन्तर्गत कारखाने के गोदामों से परिवहन का और क्रेता के विकल्प पर, रेल स्टेशन या उत्पादक द्वारा साधारणतः उपयोग किए जाने वाले साइडिंग पर रेल बैगनों में लदाई का खर्च भी है और उनमें साइडिंग या बैगन कूपन, निभार और अन्य आनुवंशिक व्यय भी सम्मिलित है।

(ग) पूर्वोक्त अनुसूची 2 के स्तम्भ (2) से (7) तक में विनिर्दिष्ट कीमतों के अन्तर्गत, कारखाने के गोदामों से परिवहन का और क्रेता के विकल्प पर, चीनी का गाड़ियों, लारियों या परिवहन के अन्य साधनों में, कारखाना द्वार/कारखाना गोदाम पर लदाई-खर्च भी है और उनमें अन्य सभी आनुवंशिक व्यय सम्मिलित है।

(घ) भारतीय चीनी मानक (भा० ची० मा०) श्रेणियों से, निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर द्वारा जारी की गई बोटलों में चीनी के मानक के मुहूरबन्द नमूनों द्वारा निरूपित श्रेणियाँ अभिप्रेत हैं, जो भारतीय मानक संस्थान द्वारा बिहित मानकों के अनुरूप हैं।

अनुसूची 1

भारतीय शर्करा मानक श्रेणियों के लिए श्रेणी अनुसार रेल टिबलों में परिवान की दशा में (प्रति बिंदुल बपयों में) कीमतें

(उत्पादन शुल्क रहित)

क्षेत्र	भारतीय शर्करा मानक (भा०श०मा०)				शर्करा श्रेणियाँ		
	क-30	ख-30	घ-30	ङ-30	क-29	ख-29	ङ-29
	ग-30				ग-29		
1	2	3	4	5	6	7	
पंजाब	153.57	152.42	151.87	152.57	151.57	151.07	
हरियाणा	173.58	172.43	171.88	172.58	171.58	171.08	
राजस्थान	194.69	193.54	192.99	193.69	192.69	192.19	
पश्चिमी उत्तर प्रदेश	165.22	164.07	163.52	164.22	163.22	162.72	
मध्य उत्तर प्रदेश	177.60	176.45	175.90	176.60	175.60	175.10	
पूर्वी उत्तर प्रदेश	205.35	204.20	203.65	204.35	203.35	202.85	
उत्तरी बिहार	205.88	204.73	204.18	204.88	203.88	203.38	
दक्षिणी बिहार	271.18	270.03	269.48	270.18	269.18	268.68	
गुजरात	163.08	161.93	161.38	162.08	161.08	160.58	
मध्य प्रदेश	192.11	190.96	190.41	191.11	190.11	189.61	
महाराष्ट्र	160.17	159.02	158.47	159.17	158.17	157.67	
कर्नाटक	182.68	181.53	180.98	181.68	180.68	180.18	
आन्ध्र प्रदेश	184.57	183.42	182.87	183.57	182.57	182.07	
तमिलनाडु और पाण्डिचेरी	188.94	187.79	187.24	187.94	186.94	186.44	
असम, नागालैण्ड, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल	206.80	205.65	205.10	205.80	204.80	204.30	
केरल और गोवा	197.22	196.07	195.52	196.22	195.22	194.72	

अनुसूची 2

भा० श० मा० श्रेणियों के लिए श्रेणी अनुसार केना की गाड़ियाँ, लाशियों या पवित्र के अन्य साधनों से कारखाने के द्वार पर या कारखाने के गोदाम में परिवहन की वृत्ति में (प्रति क्विंटल रूपों में) कीमतें (उत्पादन शुल्क रहित)

क्षेत्र	भारतीय शर्करा मानक (भा० श० मा०)			शर्करा श्रेणियाँ		
	क-30	ख-30	ग-30	क-29	ख-29	ग-29
	ख-30	घ-30	ङ-30	ख-29	घ-29	ङ-29
1	2	3	4	5	6	7
पंजाब	153.35	152.20	151.65	152.35	151.35	150.85
हरियाणा	173.30	172.15	171.60	172.30	171.30	170.80
राजस्थान	194.49	193.34	192.79	193.49	192.49	191.99
पश्चिमी उत्तर प्रदेश	165.02	163.87	163.32	164.02	163.02	162.52
मध्य उत्तर प्रदेश	177.40	176.25	175.70	176.40	175.40	174.90
पूर्वी उत्तर प्रदेश	205.14	203.99	203.44	204.14	203.14	202.64
उत्तरी बिहार	205.80	204.65	204.10	204.80	203.80	203.30
बहिणी बिहार	271.10	269.95	269.40	270.10	269.10	268.60
गुजरात	162.98	161.83	161.28	161.98	160.98	160.48
मध्य प्रदेश	191.94	190.79	190.24	190.94	189.94	189.44
महाराष्ट्र	159.87	158.72	158.17	158.87	157.87	157.37
कर्नाटक	182.50	181.35	180.80	181.50	180.50	180.00
आन्ध्र प्रदेश	184.30	183.15	182.60	183.30	182.30	181.80
तमिलनाडु और पाण्डिचेरी	188.84	187.69	187.14	187.84	186.84	186.34
असम, नागालैण्ड, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल	206.80	205.65	205.10	205.80	204.80	204.30
केरल और गोवा	197.22	196.07	195.52	196.22	195.22	194.72

अनुसूची 3

पंजाब

1. बी मोरिण्डा को-आपरेटिव शुगर मिल लिमिटेड, मोरिण्डा, जिला रोहतास।
2. बी जगजीत शुगर मिल लिमिटेड, फगवाड़ा, जिला कपूरथला।
3. बी मालवा शुगर मिल लिमिटेड, धुरी, जिला संगरूर।
4. बी जनता को-आपरेटिव शुगर मिल लिमिटेड, भोगपुर, पो० आ० जिला, जालन्धर।
5. बी गोबिन्दा को-आपरेटिव शुगर मिल लिमिटेड, नवांशहर, जिला जलन्धर।
6. बी बटाला को-आपरेटिव शुगर मिल लिमिटेड, बटाला, जिला गुरदासपुर।

हरियाणा

1. बी सरस्वती शुगर मिल लि०, पो० आ० धमुनागर, जिला अम्बाला।
2. बी हरियाणा को-आपरेटिव शुगर मिल लि०, पो० आ० रोहतक, जिला रोहतक।
3. बी पानीपत को-आपरेटिव शुगर मिल लि०, पो० आ० पानीपत, जिला करनाल।
4. बी सैस करनाल को-आपरेटिव शुगर मिल लि०, पो० आ० करनाल, जिला करनाल।
5. बी सैस सोनीपत को-आपरेटिव शुगर मिल लि०, पो० आ० सोनीपत, जिला सोनीपत।

राजस्थान

1. बी मेवाड़ शुगर मिल लि०, भोपालनगर, जिला बिलोडगढ़।
2. श्री गंगानगर शुगर मिल लि०, श्रीगंगानगर, पो० आ०, जिला श्रीगंगानगर।
3. श्री केशोरक्षपत सहकारी शुगर मिल लि०, पो० आ० केशोरक्षपत, जिला बीदी।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश

1. बी मोदी इण्डस्ट्रीज लि०, मोदीनगर, जिला मेरठ।
2. बी यू० पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट मोहिउदीनपुर, जिला मेरठ।
3. जसवंत शुगर मिल लि०, मेरठ शहर, जिला मेरठ।
4. दोराला शुगर वर्क्स, दोराला, जिला मेरठ।
5. बी यू० पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट सकोटीटाणा, जिला मेरठ।
6. मवाना शुगर वर्क्स, मवाना, जिला मेरठ।
7. बी भागपत को-आपरेटिव शुगर मिल लि०, भागपत, जिला मेरठ।
8. रमाला सहकारी बीनी मिल लि०, पो० आ० रमाला, जिला मेरठ।
9. बी सिम्भावली शुगर मिल प्राइवेट लि०, पो० आ० सिम्भावली, जिला मेरठ।
10. बी शिवेणी इंजीनियरिंग वर्क्स लि०, शुगर यूनिट बी अपर इंडिया शुगर मिल खतौली, जिला मुजफ्फरनगर।
11. स्वरूप बेजिटेबल प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज लि०, मतसूरपुर, जिला मुजफ्फरनगर।

12. वी अयुत्तर शृगर मिलज कं० लि०, रोहनाकला, पो० आ० रोहना मिलज, जिला मुजफ्फरनगर ।
13. वी अवर दोआब शृगर मिलज लि०, शामनी, जिला मुजफ्फरनगर ।
14. वी पञ्जी शृगर जनरल मिलज कं०, पञ्जीनगर, जिला बुलन्धर ।
15. वी जानकी शृगर मिलज एण्ड कं०, दोईशाला, जिला बेहलून ।
16. गंगेश्वर लिमिटेड, देवबंद, जिला सहारनपुर ।
17. वी लाई कृष्णा शृगर मिलज लि०, सहारनपुर, जिला सहारनपुर ।
18. वी किसान कोआपरेटिव शृगर फैक्टरी लि०, पो० आ० सरसावा, जिला सहारनपुर ।
19. रायबहादुर नारायण सिंह शृगर मिलज लि०, लखसर, जिला सहारनपुर ।
20. वी महालक्ष्मी शृगर मिलज लि०, इन्धालपुर, पो० आ० जिला सहारनपुर ।
21. किसान सहकारी चीनी मिलज लिमिटेड, मन्पुशहर, पो० आ० जहांगीराबाद, जिला बुलन्धर ।

मध्य उत्तर प्रदेश

1. शिव प्रसाद बनारसीदास शृगर मिलज, बिजनौर, जिला बिजनौर ।
2. आर नैनेज शृगर मिलज लि०, सिउहारा, जिला बिजनौर ।
3. वी धामपुर शृगर मिलज लि०, पो० आ० धामपुर, जिला बिजनौर ।
4. वी अयुष्या शृगर मिलज, पो० आ० राजा का साहसपुर, जिला मुरादाबाद ।
5. कुन्दन शृगर मिलज प्रा० लि०, धमरोहा, जिला मुरादाबाद ।
6. रजा बुलन्ध शृगर कम्पनी लि०, पो० आ० रामपुर, जिला रामपुर ।
7. एच० आर० शृगर फैक्टरी प्रा० लि०, बरेली, जिला बरेली ।
8. वी केसर शृगर वर्क्स बेहेरी लिमिटेड, जिला बरेली ।
9. रोजा शृगर वर्क्स आफ कैरय एण्ड कम्पनी लि०, रोजा, जिला शाहजहापुर ।
10. एल० एच० शृगर फैक्टरी लि०, पीलीभीत, जिला पीलीभीत ।
11. वी किसान कोआपरेटिव शृगर फैक्टरी लि०, मन्गोली, जिला पीलीभीत ।
12. एल० एच० शृगर फैक्टरी एण्ड प्रायल मिलज प्रा० लि०, काशीपुर, जिला नैनीताल ।
13. वी बाजपुर कोआपरेटिव शृगर फैक्टरी लि०, बाजपुर, जिला नैनीताल ।
14. वी किष्ठा शृगर कम्पनी लिमिटेड, किष्ठा जिला नैनीताल ।
15. मैसर्स किसान सहकारी चीनी मिलज लि०, पो० आ० नाबेही, जिला नैनीताल ।
16. वी निधौली शृगर फैक्टरी, मनपूर्णगिरिया, पो० आ० निधौली, जिला ऐटा ।
17. वी अरध शृगर मिलज लि०, हरनाब, जिला सीतापुर ।
18. वी लक्ष्मी शृगर मिलज प्रा० लि०, पड़ौली, जिला सीतापुर ।
19. वी मसेरिया बिसवान शृगर फैक्टरी प्रा० लि०, बिसवान, जिला सीतापुर ।
20. वी हिन्दुस्तान शृगर मिलज लि०, गोलागोकरतनाय जिला खीरी ।
21. वी गोविन्द शृगर मिलज लि०, पो० आ० ऐरा स्टेट, जिला खीरी ।
22. शारवा शृगर एण्ड इन्स्टीज लि०, पो० बाक्स 50, जिला पलिया, खीरी ।
23. वी लक्ष्मी शृगर एण्ड प्रायल मिलज लि०, हरदोई, जिला हरदोई ।
24. वी किसान सहकारी चीनी मिलज लि०, कईमगंज, जिला फर्रुखाबाद ।
25. किसान सहकारी चीनी मिलज लि०, सेधा (हरदुभागंज) पो० आ० सेधा, जिला फर्रुखाबाद ।
26. मैसर्स छाता शृगर कम्पनी लि०, पो० आ० छाता, जिला मथुरा ।

27. मैसर्स चन्दपुर शृगर कम्पनी लि०, पो० आ० चम्बपुर, जिला बिजनौर ।
28. मैसर्स रुद्रा बिलास किसान सहकारी चीनी मिलज लि०, पो० आ० बिलासपुर, जिला रामपुर ।
29. मैसर्स बिसलपुर किसान सहकारी चीनी मिलज लि०, पो० आ० बिसलपुर, जिला पीलीभीत ।
30. मैसर्स एक्सपेरिमेंटल शृगर फैक्टरी (नेगाज शृगर इन्स्टीट्यूट), पो० आ० कल्याणपुर, कानपुर ।
31. मैसर्स किसान सहकारी चीनी मिलज लि०, बदायूं, पो० आ० जिला बदायूं ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश

1. वी सता शृगर मिलज कम्पनी लि०, शाहगंज, जिला जौनपुर ।
2. कं० एम० शृगर मिलज प्रा० लि०, मोतीनगर जिला फैजाबाद ।
3. वी यू० पी० स्टेट शृगर कारपोरेशन लि०, यूनिट बंक बाराबंकी, जिला बाराबंकी ।
4. वी बुढ़वाल शृगर मिलज कम्पनी लि०, बुढ़वाल, जिला बाराबंकी ।
5. आर० बी० लक्ष्मणदास शृगर एण्ड जनरल मिलज प्रा० लि०, पो० आ० जरवान रोड, जिला बहराइच ।
6. बलरामपुर शृगर कम्पनी लि०, बलराम फैक्ट्री ब्रांच, बलरामपुर, पो० आ० जिला गौडा ।
7. तुलसीपुर शृगर कम्पनी लि०, तुलसीपुर फैक्ट्री ब्रांच, तुलसीपुर, पो० आ० जिला गौडा ।
8. वी नवाधगंज शृगर मिलज कम्पनी लि०, पो० आ० शृगर फैक्ट्री नवाधगंज, जिला गौडा ।
9. वी सकधारिया शृगर मिलज प्रा० लि०, पो० आ० बम्भान, जिला गौडा ।
10. वी बस्ती शृगर कम्पनी लि०, पो० आ० वाल्टरगंज, जिला बस्ती ।
11. वी बस्ती शृगर मिलज कम्पनी लि०, बस्ती, जिला बस्ती ।
12. माधो महेश शृगर मिलज प्रा० लि०, पो० आ० भुषेरवा, जिला बस्ती ।
13. श्री आनन्द शृगर मिलज लिमिटेड, खलीलाबाद, जिला बस्ती ।
14. श्री गणेश शृगर मिलज कम्पनी लि०, पो० आ० आनन्दनगर, जिला गोरखपुर ।
15. मराया शृगर मिलज प्रा० लि०, सरदारनगर, जिला गोरखपुर ।
16. मैसर्स यू० पी० स्टेट शृगर कारपोरेशन लि०, पिपराहट, जिला गोरखपुर ।
17. वी पंजाब शृगर मिलज कम्पनी लि०, घुषली, जिला गोरखपुर ।
18. महावीर शृगर मिलज लि०, पो० आ० सिसवा बाजार, जिला गोरखपुर ।
19. वी यू० पी० स्टेट शृगर कारपोरेशन लि०, यूनिट खड्डा, पो० आ० राजाबाजार खड्डा, जिला देवरिया ।
20. लक्ष्मी देवी शृगर मिलज (प्रा०) लि०, छितौनी, जिला देवरिया ।
21. वी शंकर एप्रो इण्डस्ट्रीज लि०, कैपटनगंज, जिला देवरिया ।
22. वी ईश्वरी खेतान शृगर मिलज लि०, लक्ष्मीगंज, जिला देवरिया ।
23. वी मधुश्वरी खेतान शृगर मिलज (प्रा०) लि०, पो० आ० रामकोला, जिला देवरिया ।
24. गंगेश्वर लिमिटेड, रामकोला, जिला देवरिया ।
25. कानपुर शृगर वर्क्स लि०, कपकुर्दया फैक्ट्री ब्रांच, जिला देवरिया ।
26. कानपुर शृगर वर्क्स लि०, पड़ौना, फैक्ट्री ब्रांच, जिला देवरिया ।
27. वी यूनाइटेड प्रावि० शृगर कम्पनी लि०, सिधौराह, पो० आ०, जिला देवरिया ।
28. श्री सीताराम शृगर मिलज कम्पनी लि०, सेतालपुर, पो० आ० जिला देवरिया ।

29. कानपुर शहर बक्स लि०, गौरी फैक्ट्री बाँच, पो०आ० गौरी बाजार, जिला देवरिया ।
30. देवरिया शहर मिल्क लि०, देवरिया हाकधर, देवरिया ।
31. यू० पो० स्टेट शहर कारपोरेशन लि०, यूनिट भटनी, पो०आ० भटनी, जिला देवरिया ।
32. बी प्रतापपुर शहर मिल्क लि०, पो०आ० प्रतापपुर, जिला देवरिया ।
33. दी काशी सहकारी चीनी मिल्क लि०, औराम, जिला वाराणसी ।
34. दी किसान सहकारी चीनी मिल्क लि०, रसरा, जिला बलिया ।
35. बी किसान सहकारी चीनी मिल्क लि०, आजमगढ़ जिला आजमगढ़ ।
36. मैसर्स नन्दगंज सिहोरी शहर कम्पनी लि०, गाव सिहोरी, पो०आ० नन्दगंज, तहसील सैयदपुर, जिला गाजीपुर ।
37. मैसर्स नन्दगंज सिहोरी शहर कम्पनी लि०, दरियापुर यूनिट, पो०आ० दरियापुर, जिला रायबरेली ।

उत्तरी बिहार

1. नार्थ बिहार शहर मिल्क लि०, बाया पो०आ० नरायपुर, जिला चम्पारन ।
2. हरिनगर शहर मिल्क लि०, पो०आ० हरिनगर, जिला चम्पारन ।
3. दी न्यू स्वदेशी शहर मिल्क लि०, नरकटियागंज, जिला चम्पारन ।
4. चम्पारन शहर कम्पनी लि०, बागह फैक्ट्री बाँच, पो०आ० बारकिया, जिला चम्पारन ।
5. श्री कृष्ण ज्ञानोदय शहर मिल्क, लोरिया, पो०आ० जिला चम्पारन ।
6. मोतीलाल पदमपत उद्योग लि०, (शहर मिल्क बाँच) मसोनिया, जिला चम्पारन ।
7. बी सुगौली शहर बक्स प्रा० लि०, पो०आ० सुगौली, जिला चम्पारन ।
8. गोविन्द शहर मिल्क लि०, लेखा आफ दी श्री हनुमान शहर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, पो०आ० मोतीहारी, जिला चम्पारन ।
9. चम्पारन शहर कम्पनी लि०, जनपटिया फैक्ट्री बाँच, पो०आ० जनपटिया, जिला चम्पारन ।
10. बेलसूद शहर कम्पनी लि०, बाया पो०आ० जिला मुजफ्फरपुर ।
11. बी मोतीपुर शहर फैक्ट्री प्रा० लि०, मोतीपुर, जिला मुजफ्फरपुर ।
12. सीतलपुर शहर बक्स लि०, पो०आ० गरील, जिला मुजफ्फरपुर ।
13. डा तिरहाट कोम्पारेटिव शहर फैक्ट्री लि०, म्याम फैक्ट्री, पो०आ० जिला दरभंगा ।
14. लोहाट शहर बक्स आफ दी दरभंगा शहर कं० लि०, लोहाट पो०आ० जिला दरभंगा ।
15. साकरी शहर बक्स आफ दी दरभंगा शहर कम्पनी लि०, साकरी, पो०आ० जिला दरभंगा ।
16. ममस्तीपुर सेन्ट्रल शहर कम्पनी लि०, ममस्तीपुर फैक्ट्री बाँच, पो०आ० ममस्तीपुर, जिला दरभंगा ।
17. न्यू इण्डिया शहर मिल्क लि०, हुमपुर रोड, पो०आ० हुसनपुर शहर मिल्क, जिला दरभंगा ।
18. सासा मूसा शहर बक्स प्रा० लि०, सासा मूसा पो०आ०, जिला सारन ।
19. बी विष्णु शहर मिल्क लि०, पो०आ० विष्णु शहर मिल्क, गोपालगंज, जिला सारन ।
20. श्री कृष्ण ज्ञानोदय शहर लि०, हथुघा, पो०आ० मोरगंज, जिला सारन ।
21. भारत शहर मिल्क लि०, मिदनालिया, पो०आ०, जिला सारन ।
22. कानपुर शहर बक्स लि०, मरहोराह फैक्ट्री बाँच, मरहोराह पो०आ०, जिला सारन ।
23. न्यू सावन शहर मिल्क, पो०आ० सिवान, जिला सिवान ।
24. दी कृष्ण ज्ञानोदय शहर लि०, हथुघा पो०आ० सिवान, जिला सिवान ।

25. दी बिहार शहर बक्स बाँच आफ दी इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि०, पो०आ० पंचरखी, जिला सारन ।
26. पूर्णिया सहकारी शहर फैक्ट्री लि०, बनमाखी (बिहार) ।

बलिया बिहार

1. साउथ बिहार शहर मिल्क लि०, पो०आ० बीटा, जिला पटना ।
2. गुराह बीनी मिल्क, पो०आ० गुराह मिल्क, जिला गया ।
3. मैसर्स मोहिनी शहर मिल्क लि०, बारीमासीगंज, जिला गया

मुजफ्फर

1. श्री छेवत सहकारी खाण्ड उद्योग मण्डली लि०, सरदार बाग, दरदौली, जिला सूरत ।
2. श्री माधी विभाग खांड उद्योग सहकारी मण्डली लि०, माधी जिला सूरत ।
3. श्री चलयान विभाग खांड उद्योग सहकारी मण्डली लि०, पो०आ० चलयान (वेस्टर्न रेलवे), जिला सूरत ।
4. बी सहकारी खांड उद्योग मण्डली लि०, गदवी विलिमोरा, जिला वलुवर ।
5. श्री बिलेश्वर खांड उद्योग खेवत सहकारी मण्डली लि०, कोडी-नगर, जिला धर्मरेली ।
6. मैसर्स श्री धर्मरेली सहकारी कृषि खांड उद्योग लि०, गावदका ग्राम, जिला धर्मरेली ।
7. श्री ऊना तालुका सहकारी खांड उद्योग मण्डली लि०, ऊना (सोरठ) जिला जूनागढ़ ।
8. चांगोनर सहकारी खांड उद्योग लि०, परमज, तालुका कैतलाद, जिला कैरा ।
9. मैसर्स श्री सयान विभाग सहकारी खांड उद्योग मण्डली लि०, पो०आ० सियान, तहसील धोलपाद, जिला सूरत ।
10. मैसर्स श्री मरोली विभाग खांड उद्योग सहकारी मण्डली लि०, पो०आ० मरोली, जिला बलसाव ।
11. मैसर्स शिव बलसाव सहकारी खांड उद्योग मण्डली लि०, परनेरा पारदी, जिला बलसाव ।
12. मैसर्स श्री तलाणा तालुका सहकारी खांड उद्योग मण्डली लि०, पो०आ० तलाला (गिर), जिला जूनागढ़ ।
13. मैसर्स श्री नरदार बलभभाई पटेल खांड उद्योग कोम्पारेटिव मोसाइटो लि०, जमनाबाद रोड, धोरजी, जिला राणकोट ।

मध्य प्रदेश

1. बी ग्यालियर शहर कं० लि०, पो० डबरी, जिला ग्यालियर ।
2. बी जीवाजी राव शहर कं० लि०, दलौडा, जिला मन्दसौर ।
3. दी जावड़ा शहर मिल्क प्रा० लि०, जावड़ा, जिला रतलाम ।
4. सेठ गोविन्दराम शहर मिल्क, पो०आ० मेहीवपुर रोड, जिला उज्जैन ।
5. दी भोपाल शहर इण्डस्ट्रीज लि०, सेहोर, जिला सेहोर ।
6. बी मुरेना मण्डल सहकारी शक्कर कारखाना लि०, कसरम, जिला मुरेना ।

महाराष्ट्र

1. दी रावलगांव शहर बक्स लि०, पो०आ० रावलगांव, जिला नासिक ।
2. गिरना सहकारी साखर कारखाना लि०, पो०आ० रावलगांव, जिला नासिक ।
3. निफाव सहकारी साखर कारखाना लि०, पो०आ० नागमाहेब नगर, जिला नासिक ।
4. दी संजीवनी (तकनी) सहकारी कारखाना लि०, पो०आ० कोपरगाव, जिला धर्मवननगर ।
5. दी कोपरगाव सहकारी साखर कारखाना लि०, पो०आ० कलिपवादी, जिला धर्मवननगर ।

6. श्री गोदावरी शहर मिल्स लि०, पो० आ० साबरवादी, जिला अहमदनगर ।
7. श्री गोदावरी शहर मिल्स लि०, पो० आ० कदमीवादी, जिला अहमदनगर ।
8. श्री चांगदेव शहर मिल्स लि०, पो० आ० चांगदेव नगर, जिला अहमदनगर ।
9. श्री गणेश सहकारी साखर कारखाना लि०, गणेशनगर, पो० आ० रंजनगांव खुर्द, जिला अहमदनगर ।
10. अशोक सहकारी साखर कारखाना लि०, अशोक नगर, पो० आ० श्रीरामपुर, जिला अहमदनगर ।
11. श्री महाराष्ट्र शहर मिल्स लि०, पो० आ० तिलक नगर, जिला अहमदनगर ।
12. बेलापुर शहर एण्ड एलाइड इंडस्ट्रीज लि०, हरी गांव, जिला अहमदनगर ।
13. श्री प्रवारा सहकारी साखर कारखाना लि०, पो० आ० प्रवारा, जिला अहमदनगर ।
14. श्री राहुरी सहकारी साखर कारखाना लि०, श्री शिवाजी नगर, पो० आ० राहुरी फैक्ट्री ब्रांच, जिला अहमदनगर ।
15. श्री श्री गोंडा सहकारी साखर कारखाना लि०, श्री गोंडा, पो० आ० बेलावन्दी, जिला अहमदनगर ।
16. संगमनेर भाग सहकारी साखर कारखाना लि०, संगमनेर, जिला अहमदनगर ।
17. श्री ज्ञानेश्वर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, भारडे बी० के०, ताल० निवास, जिला अहमदनगर ।
18. गंगापुर सहकारी साखर कारखाना लि०, पो० आ० रघुनाथ नगर, ता० गंगापुर, जिला श्रीरंगाबाद ।
19. मैसर्स श्री सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि०, मिनोद, जिला श्रीरंगाबाद ।
20. कन्नड़ सहकारी साखर कारखाना लि०, कन्नड़, जिला श्रीरंगाबाद ।
21. मैसर्स विनायक सहकारी साखर कारखाना लि०, परसादा, ताल० वैजयापुर, जिला श्रीरंगाबाद ।
22. श्री सोमेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि०, पो० आ० नीरा, जिला पूना ।
23. श्री भोलेगांव सहकारी साखर कारखाना लि०, पो० आ० मासेगांव, बी० के०, ता० बारामती, जिला पूना ।
24. श्री छत्रपति सहकारी साखर कारखाना लि०, पो० आ० भवानी नगर, ता० हन्सापुर, जिला पूना ।
25. बालचन्द नगर इण्डस्ट्रीज लि०, पो० आ० बालचन्द नगर, जिला पूना ।
26. यशवन्त सहकारी साखर कारखाना लि०, पो० आ० धीयर, तालुका हवेली, जिला पूना ।
27. यशवन्त सहकारी साखर कारखाना लि०, पो० आ० अक्कलुज, जिला शोलापुर ।
28. श्री सासवध माली शहर फैक्ट्री लि०, पो० आ० मालीनगर, जिला शोलापुर ।
29. श्री ब्रह्मा शहर सिण्डीकेट लि०, पो० आ० धीपुर, जिला शोलापुर ।
30. श्री शंकर सहकारी साखर कारखाना लि०, सदाशिव नगर, ताल मलशीरस, जिला शोलापुर ।
31. श्री सिद्धेश्वर शक्कर कारखाना लि०, कुमाटे तालुक उत्तरी, शोलापुर, जिला शोलापुर ।
32. श्री फालटान शहर बक्स लि०, पो० आ० साखरवादी, जिला सतारा ।
33. श्री राम सहकारी साखर कारखाना लि०, पो० आ० फलटन, जिला सतारा ।
34. कृष्ण सहकारी साखर कारखाना लि०, रिठारे ब्रह्मक, पो० आ० शिवनगर, जिला सतारा ।
35. सतारा सहकारी साखर कारखाना लि०, मुनिज, जिला सतारा ।
36. वामा साहब देसाई सहकारी शक्कर कारखाना लि०, धरंली, ताल० पटन, जिला सतारा ।
37. सह्याद्री सहकारी साखर कारखाना लि०, यशवन्त नगर, ताल कराद, जिला सतारा ।
38. शेतकरी सहकारी साखर कारखाना लि०, पो० आ० सांगली, जिला सांगली ।
39. श्री बाल्मिकी तालुका सहकारी साखर कारखाना लि०, सखराली इन्कामपुर पो० आ०, जिला सांगली ।
40. विश्वास सहकारी साखर कारखाना लि०, यशवन्त नगर, तालुक शिरावा, जिला सांगली ।
41. श्री वाराणा सहकारी साखर कारखाना लि०, पो० आ० वारा-नगर, जिला कोल्हापुर ।
42. श्री कोल्हापुर शहर मिल्स लि०, कम्बा बवावा, पो० आ० कोल्हापुर, जिला कोल्हापुर ।
43. श्री पंचगंगा सहकारी साखर कारखाना लि०, पो० आ० इचलकेरीजी, जिला कोल्हापुर ।
44. श्री भागवाणी सहकारी साखर कारखाना लि०, पो० आ० माहुनगर (पार्गती), जिला कोल्हापुर ।
45. कुम्भी केमारी सहकारी साखर कारखाना लि०, कुदीनर पो० आ० कोपरदे, जिला कोल्हापुर ।
46. श्री दधंगंगा वेदगंगा सहकारी साखर कारखाना लि०, बिबरी पो० आ० मोथीनगर, जिला कोल्हापुर ।
47. श्री वल्मा शेतकरी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, शिरोल, तालुका शिरोल, जिला कोल्हापुर ।
48. श्री वल्मा शेतकरी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, शिरोल, तालुका शिरोल, जिला कोल्हापुर ।
49. तेरना शेतकरी सहकारी साखर कारखाना लि०, धोकी पो० आ०, जिला श्रीममानाबाद ।
50. मैसर्स शेतकरी सहकारी साखर कारखाना लि०, किलारी, जिला श्रीममानाबाद (महाराष्ट्र) ।
51. श्री सतपुडा तामी सहकारी साखर कारखाना लि०, मोलबेडा, ताल० गहाडा, जिला धुलिया ।
52. श्री पंजाबन सहकारी साखर कारखाना लि०, माडेन, ताल सकरी, जिला धुलिया ।
53. धसन्त सहकारी शक्कर कारखाना लि०, फूसिद, जिला येतमाल ।
54. कलम्बर विभाग सहकारी साखर कारखाना लि०, काममवार, ताल० कपार, जिला ननदेड़ ।
55. मारठबावा सहकारी साखर कारखाना लि०, पो० डोगरकडा, तालुक बलमपुरी, जिला परभानी ।
56. अम्बोजोगर्ह सहकारी साखर कारखाना लि०, अम्बोजोगर्ह, जिला मीर ।
57. मधुकर सहकारी साखर कारखाना, मर्यावित, नेवी मार्ग फैजपुर, जिला जलगांव ।
58. मैसर्स बसन्त सहकारी साखर कारखाना लि०, कोसाभा, तालुक हरानडोल, जिला जलगांव ।
59. मैसर्स जय भवानी कोआपरेटिव शहर फैक्ट्री लि०, पो० आ० जोगर्ह, जिला मीर ।
60. मैसर्स वीलत शेतकरी सहकारी साखर कारखाना लि०, यशवन्त नगर, तालुक चान्दगढ़, जिला कोल्हापुर ।
61. मैसर्स बेलगंगा सहकारी साखर कारखाना लि०, पो० आ० भारम, तालुका, जालीमगांव, जिला जलगांव ।
62. मैसर्स श्री बुद्धेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि०, कसाबा, पिपलगांव, तालुक, पठादरी, जिला अहमदनगर ।
63. मैसर्स श्री जगदम्बा सहकारी साखर कारखाना लि०, रासीम, तहसील करजाल, जिला अहमदनगर ।

64. मै० जीजामाता सहकारी साखर कारखाना लि०, वमरविद, ता० मेहकार, जिला बुलदाना ।
65. मैमर्स कर्मवीर काकामाहेब बाघ सहकारी शक्कर कारखाना लि०, काकासाहेब नगर, पो० ब्रा० रनवाड, जिला नासिक ।
66. मैमर्स काडवा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० ब्रा० मातुवाडी, तालुक दिनदोर, जिला नासिक ।
67. मैमर्स नासिक सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पावसे, जिला नासिक ।
68. मैमर्स मुना सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० ब्रा० सोनाई, तालुक निवासा, जिला अहमदनगर ।
69. मैमर्स काडा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० ब्रा० काडा, तालुक अस्ती, जिला बीड ।
70. मैमर्स गांधी गलाज तालुक सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० ब्रा० गांधी गलाज, जिला कोल्हापुर ।

गोवा

1. संजीवनी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, उमगांव, थिस्क, गोवा ।

कर्नाटक

1. बी उगर शूगर वर्क्स लि०, पो० ब्रा० उगर खुर्द, जिला बेलगांव ।
2. हिरण्याकांभी सहकारी शक्कर कारखाना नियमित, पो० ब्रा० लक्ष्मेश्वर, जिला बेलगांव ।
3. श्री भालवैरया कोआपरेटिव शूगर फैक्ट्री लि०, एम० के० हुगली, जिला बेलगांव ।
4. मैसर्स श्री दुधगंगा कृष्णा सहकारी शक्कर कारखाना नियमित, चिकीडी, जिला बेलगांव ।
5. बी शालारजंग शूगर मिलज (एडिबोजन आफ इंडिया शूगर तथा रिफायनरी लि०) मुनीराबाद, जिला रेचूर ।
6. बी इंडिया शूगर्स एण्ड रिफाइनरीज लि०, हासपेट, जिला बिलारी ।
7. बी काम्पली कोआपरेटिव शूगर फैक्ट्री लि०, काम्पली शूगर फैक्ट्री, पो० ब्रा० जिला बिलारी ।
8. मैसर्स कोठारी शूगर्स एण्ड कैमिकल, पो० ब्रा० सिमगुवा, जिला बेल्लरी ।
9. श्री भूकेश टैक्सटाइल मिलज प्रा० लि०, (तुंगभद्रा शूगर वर्क्स), शिमोगा, जिला शिमोगा ।
10. पाण्डवपुरा सहकारी साखर कारखाना लि०, पाण्डवपुरा, जिला माडिया ।
11. बी मैसूर शूगर कम्पनी लि०, माण्ड्या, जिला माण्ड्या ।
12. मैसर्स चमन देववानी शूगर लि०, बलज्झाना (दोडडी), जिला माण्ड्या (कर्नाटक) ।
13. गोरी बिदानूर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, गोरीबिदानूर, जिला कोलार ।
14. बिदार सहकारी शक्कर कारखाना लि०, बिदार जिला बिदार ।
15. बाणी बिलास कोआपरेटिव शूगर फैक्टरी लि०, होरीपुर, जिला त्रिपुरी ।
16. देवनगिरी शूगर कम्पनी लि०, खुबरीदा, तालुका, देवनगिरी, जिला त्रिपुरी ।
17. सुमह्या शूगर वर्क्स, शमीरवाडी, महालिंगपुर, जिला बीजापुर ।
18. श्री महादेवशरी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, कोलेगल जिला ।
19. गंगवती शूगर लि०, श्रीरामनगर पोस्ट, जिला रायचूर ।
20. रायभाग सहकारी शक्कर कारखाना नियमित, पो० ब्रा० बुडीभाल, तालुक रायभाग ।
21. मैसर्स भद्रा सहकारी शक्कर कारखाना नियमित, बोवावाडी, दावंगीरी तालुका, जिला चित्तौर्ग ।

मध्य प्रदेश

1. श्री रामा शूगर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, शिवना ग्राम, जिला श्री काकुलम ।
2. श्री रामा शूगर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, बोबिसी, जिला श्री काकुलम ।
3. अमादालाखाना कोआपरेटिव एग्रीकल्चरल एण्ड इण्डस्ट्रीयल सोसाइटी लि०, अमादालाखाना पो० ब्रा०, जिला श्री काकुलम ।
4. नाकापाले कोआपरेटिव एग्रीकल्चरल एण्ड इण्डस्ट्रीयल सोसायटी लि०, धुमापाल, पो० ब्रा० अनाकापाले, जिला विशाखापटनम ।
5. डी० एंटीकोपाका कोआपरेटिव एग्रीकल्चरल इण्डस्ट्रीयल सोसाइटी लि०, पो० ब्रा० एंटीकोपा, जिला विशाखापटनम ।
6. डी बोदावरम कोआपरेटिव शूगर लि०, डाकखाना गावाडी, जिला विशाखापटनम ।
7. डी बाण्डवा कोआपरेटिव शूगर लि०, पो० ब्रा० पयाकारेपेटा, जिला ईस्ट गोवावरी ।
8. डी किरलामुपुरी शूगर मिक्स लि०, पिथापुरम, जिला ईस्ट गोवावरी ।
9. डी दखन शूगर एण्ड बाबकारी कं० लि०, पो० ब्रा० समलकोट, जिला ईस्ट गोवावरी ।
10. श्री सरवस्था शूगर्स लि०, चेन्नूर, जिला पूर्व गोवावरी ।
11. डी० डी० एस० शूगर्स, पो० ब्रा० चंगानू, जिला पश्चिमी गोवावरी ।
12. डी धारध्र शूगर्स लि०, तानूक, जिला पश्चिमी गोवावरी ।
13. डी पाल्मकील कोआपरेटिव एग्रीकल्चरल एण्ड इण्डस्ट्रीयल सोसायटी लि०, पो० ब्रा० पोलाकोप, जिला पश्चिमी गोवावरी ।
14. डी वेस्ट गोदावरी कोआपरेटिव शूगर्स लि०, मिमाडोल, जिला पश्चिमी गोवावरी ।
15. डी के० सा० पी० लि०, पो० ब्रा० ब्यूर, जिला कृष्णा ।
16. जल्लामाली शूगर्स लि०, पो० ब्रा० चल्लापाली, जिला कृष्णा ।
17. डी निजामा शूगर फैक्ट्री लि०, शक्कर नगर, जिला निजामाबाद ।
18. डी निजामाबाद को० ब्रा० शूगर फैक्ट्री लि०, निजामाबाद, जिला निजामाबाद ।
19. डी चित्तूर कोआपरेटिव शूगर्स लि०, पो० ब्रा० तसावासापाले, चित्तूर, जिला चित्तूर ।
20. डी निजाम कोआपरेटिव शूगर्स लि०, पो० ब्रा० तसावासापाले, चित्तूर, जिला चित्तूर ।
21. मैसर्स विजयरामा गजपेटी एग्रीकल्चरल एंड इण्डस्ट्रीयल सोसायटी लि०, पो० ब्रा० भीमासिमी, जिला विशाखापटनम ।
22. मैसर्स कुडप्पा कोआपरेटिव शूगर फैक्ट्री लि०, द्वारा रमेश टाकीज, कुडप्पा (समीप बेसर, जिला कुडप्पा) ।
23. मैसर्स श्री बेंकटेश्वर कोआपरेटिव शूगर फैक्ट्री लि० (तिरुपती), पो० ब्रा० गजुलमण्डयाम, जिला चित्तूर ।
24. मैसर्स निजाम शूगर फैक्ट्री लि०, पो० ब्रा० विरयालगुडा, जिला बेलगोण्डा ।
25. मैसर्स कोब्यूर कोआपरेटिव शूगर फैक्ट्री लि०, श्री पोषी रेड्डी पालम (पोस्ट), ब्यूर तालुक, जिला निल्लौर ।
26. मैसर्स निजाम शूगर फैक्ट्री लि०, परीसी के निकट, पो० ब्रा० हिल्दुपुर, जिला अनन्तापुर (मध्य प्रदेश) ।

तमिलनाडु

1. डी अन्नूर कोआपरेटिव शूगर मिक्स लि०, मुवापुडेट, अन्नूर पो० ब्रा०, जिला नार्थ अरकाट ।
2. डी मदस्तकम कोआपरेटिव शूगर मिक्स लि०, पो० ब्रा० पेडालम, जिला चिगलपुट ।
3. डी० ब्राई० डी० पैरी लि०, नेलीकुक्कनम पो० ब्रा०, जिला अरकाट ।

4. दी साउथ इंडिया स्टील एंड शुगर लि०, भण्डीयामवाकम, विल्लुपूरम तालुक, जिला दक्षिणी अरकाट ।
5. अरुणा शुगर लि०, पेन्नाडम, जिला दक्षिणी अरकाट ।
6. कालाकुर्चि कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पो० आ० पूगिल-थुरीपट्ट, जिला दक्षिणी अरकाट ।
7. धीरू अरुन शुगर लि०, पो० आ० बदायिगिलम, जिला तंजौर ।
8. कोटारी शुगर एण्ड कैमिकल्स लि०, तालपुडी, जिला तिरुचिरापल्ली ।
9. कावेरी शुगर एण्ड कैमिकल्स लि०, कावेरी फैक्ट्री, पटीवायटो-लाटा, जिला तिरुचिरापल्ली ।
10. दी वक्खन शुगर एण्ड आबकारी कं० लि०, पो० आ० पुगासूर शुगर फैक्ट्री, जिला तिरुचिरापल्ली ।
11. दी सालेम कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, मोहानूर वाया करन्ड, जिला सालेम ।
12. वी शक्ति शुगर लि०, शक्तिनगर, पो० आ० डरीरा, जिला कोयम्बटूर ।
13. अमरावती कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, कृष्णापुरम ईस्ट, जिला कोयम्बटूर ।
14. वी मथुरा शुगर लि०, पणडोरापुरम पो० आ०, जिला मडुराई ।
15. दी नेशनल कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, मडुरा, अलगमालूर पोस्ट, जिला मडुराई ।
16. वी धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पालाकोड, जिला धर्मपुरी ।
17. मैसर्स तिरुपतूर शुगर लि०, तिरुपतूर, जिला नार्थ अरकाट ।
18. मैसर्स वेलोर कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, डी-5, गांव अनुनताली, गुडियाथाम तालुक, जिला नार्थ अरकाट ।
19. मैसर्स तमिलनाडु शुगर कारपोरेशन लि०, धन्नावर, जिला धन्नावर ।
20. मैसर्स पलार शुगर प्रा० लि०, पो० आ० नेलपट्टी, जिला नार्थ अरकाट ।

पाण्डिचेरी

1. न्यू हरिजन शुगर मिल्स प्रा० कं० लि०, सबरर (अरियार), पाण्डिचेरी ।

उड़ीसा

1. असका कोआपरेटिव शुगर इण्डस्ट्रीज लि०, पो० आ० असका, जिला गंजम ।
2. जैपुर शुगर कं० लि०, पो० आ० रायागढ़, जिला कोरापुटर ।
3. मैसर्स दी वारगढ़ कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पो० आ० वारगढ़, जिला सम्बलपुर ।

आसाम

1. आसाम कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पो० आ० बरुआ वामुनगांव, जिला शिवसागर ।
2. मैसर्स आसाम इंडस्ट्रियल डिवलपमेंट कारपोरेशन लि०, कन्नाचल रोड, गोहाटी-3 (स्थिति चारगौला, जिला कछार) ।

नागालैण्ड

1. नागालैण्ड शुगर मिल्स लि०, दीनापुर (नागालैण्ड) ।

पश्चिमी बंगाल

1. दी रामुगर केन एण्ड शुगर कं० लि०, पो० आ० प्लासी, जिला नाडला ।
2. मैसर्स अहमदपुर शुगर मिल्स, अहमदपुर, जिला बीरभूम ।

994 GI/79—2

केरल

1. दी ट्रावमकोर शुगर एण्ड कैमिकल्स लि०, पम्बा रीवर फैक्ट्री, तिरावल्ला पो० आ०, जिला कवलन ।
2. मन्नम शुगर मिल्स कोआपरेटिव लि०, पो० आ० 4324-पंडालम, जिला अल्लेपी ।
3. दी कोआपरेटिव शुगर लि०, चित्तूर, पो० आ० मामनपारा, जिला पालघाट ।

[सं० 1-51/79-एस० पी० आई० (डेस्क-2) (घ)]

ORDERS

New Delhi, the 17th December, 1979

G.S.R. 699(E)/Ess.Com./Sugar.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3C) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) This order may be called the Sugar (Price Determination for 1978-79 Production) Order, 1979.

(2) It shall come into force at once.

2. Price of Sugar Produced in 1978-79 Season.—The Central Government hereby determines the prices specified in columns (2) to (7) of Schedules I and II hereto annexed, as the prices payable for the Indian Sugar Standard (ISS) grades of sugar mentioned therein, packed in 'A' T will new gunny bags and produced in 1978-79 by all vacuum pan sugar factories situated in the areas specified in the corresponding entry in column (1) of the said Schedules, that is to say, the factories specified in the Schedule III hereto annexed, and required to be supplied to the persons, organisations of State Governments specified in the Order made by the Central Government under sub-clause (1) of clause 2 of the Levy Sugar Supply (Control) Order, 1979 for delivery at buyer's option into (i) railway wagons and (ii) the buyer's carts, lorries or other means of transport at the factory gate/factory godown, respectively :

Provided that where a sugar factory is situated at a distance exceeding five kilometers from the nearest railway station or an out agency of the railway or from the godown outside the factory not connected by rail, the producer may charge an additional one paise per quintal of sugar per kilometer beyond five kilometers of the distance between the sugar factory and such railway station or out agency of the railway, in case of despatches by rail or between the sugar factory and such godown in case of delivery ex-godowns.

Explanation.—In this order :—

- (a) the prices specified in columns (2) to (7) of Schedules I and II aforesaid do not include the duty of excise, additional duty of excise in lieu of sales tax, and the special duty of excise, which the producer can recover, at the rate in force at the relevant time, in addition to the prices as determined by this Order.
- (b) the prices specified in columns (2) to (7) of Schedule I aforesaid include, transport from factory godowns and loading, at buyer's option, into railway wagons at the railway station or siding generally used by the producer and including siding or wagon hauling, dunnage and other incidentals.
- (c) the prices specified in columns (2) to (7) of Schedule II aforesaid include, transport from factory godowns and loading of sugar, at buyer's option into carts, lorries or other means of transport at the factory gate/factory godown and include all other incidentals.
- (d) the Indian Sugar Standard grades (ISS grades) mean the grades represented by the Standard sealed samples of sugar in bottles issued by the Director, National Sugar Institute, Kanpur conforming to the standards prescribed by the Indian Standards Institution.

SCHEDULE-I

Prices for delivery into railway wagons (Rupees per quintal)
Grade-wise for I.S.S. Grades (excluding excise duty)

Zone	Indian Sugar Standards (I.S.S.)			Grades of Sugar		
	A—30	D—30	E—30	A—29	D—29	E—29
	B—30			B—29		
	C—30			C—29		
1	2	3	4	5	6	7
1. Punjab	153.57	152.42	151.87	152.57	151.57	151.07
2. Haryana	173.58	172.43	171.88	172.58	171.58	171.08
3. Rajasthan	194.69	193.54	192.99	193.69	192.69	192.19
4. West Uttar Pradesh	165.22	164.07	163.52	164.22	163.22	162.72
5. Central Uttar Pradesh	177.60	176.45	175.90	176.60	175.60	175.10
6. East Uttar Pradesh	205.35	204.20	203.65	204.35	203.35	202.85
7. North Bihar	205.88	204.73	204.18	204.88	203.88	203.38
8. South Bihar	271.18	270.03	269.48	270.18	269.18	268.68
9. Gujarat	163.08	161.93	161.38	162.08	161.08	160.58
10. Madhya Pradesh	192.11	190.96	190.41	191.11	190.11	189.61
11. Maharashtra	160.17	159.02	158.47	159.17	158.17	157.67
12. Karnataka	182.68	181.53	180.98	181.68	180.68	180.18
13. Andhra Pradesh	184.57	183.42	182.87	183.57	182.57	182.07
14. Tamil Nadu and Pondicherry	188.94	187.79	187.24	187.94	186.94	186.44
15. Assam, Nagaland, Orissa and West Bengal	206.80	205.65	205.10	205.80	204.80	204.30
16. Kerala and Goa	197.22	196.07	195.52	196.22	195.22	194.72

SCHEDULE-II

Prices for delivery into byer's carts lorries or other means of transport at the factory gate/factory godown (rupees per quintal)
Grade-wise for ISS grades (exclusive of excise duty)

Zone	Indian Sugar Standard			(ISS) Grades of Sugar		
	A—30	D—30	E—30	A—29	D—29	E—29
	B—30			B—29		
	C—30			C—29		
1	2	3	4	5	6	7
1. Punjab	153.35	152.20	151.65	152.35	151.35	150.85
2. Haryana	173.30	172.15	171.60	172.30	171.30	170.80
3. Rajasthan	194.49	193.34	192.79	193.49	192.49	191.99
4. West Uttar Pradesh	165.02	163.87	163.32	164.02	163.02	162.52
5. Central Uttar Pradesh	177.40	176.25	175.70	176.40	175.40	174.90
6. East Uttar Pradesh	205.14	203.99	203.44	204.14	203.14	202.64
7. North Bihar	205.80	204.65	204.10	204.80	203.80	203.30
8. South Bihar	271.10	269.95	269.40	270.10	269.10	268.60
9. Gujarat	162.98	161.83	161.28	161.98	160.98	160.48
10. Madhya Pradesh	191.94	190.79	190.24	190.94	189.94	189.44
11. Maharashtra	159.87	158.72	158.17	158.87	157.87	157.37
12. Karnataka	182.50	181.35	180.80	181.50	180.50	180.00
13. Andhra Pradesh	184.30	183.15	182.60	183.30	182.30	181.80
14. Tamil Nadu and Pondicherry	188.84	187.69	187.14	187.84	186.84	186.34
15. Assam, Nagaland, Orissa and West Bengal	206.80	205.65	205.10	205.80	204.80	204.30
16. Kerala and Goa	197.22	196.07	195.52	196.22	195.22	194.72

SCHEDULE III

CENTRAL UTTAR PRADESH

PUNJAB

1. The Morinda Cooperative Sugar Mills Limited, Morinda, District Rupar.
2. The Jagajit Sugar Mills Company Limited, Phagwara, District Kapurthala.
3. The Malwa Sugar Mills Company Limited, Dhuri, District, Sangrur.
4. The Janta Cooperative Sugar Mills Limited, Bhogpur P.O. District Jullundur.
5. The Doaba Cooperative Sugar Mills Limited, Nawan-shahr, District Jullundur.
6. The Batala Cooperative Sugar Mills Limited, Batala, District Gurdaspur.

HARYANA

1. The Saraswati Sugar Mills, P.O. Yamunanagar, District Ambala.
2. The Haryana Cooperative Sugar Mills Limited, Rohtak, Unit P.O., District Rohtak.
3. The Panipat Cooperative Sugar Mills Limited, Panipat, P.O. District Karnal.
4. M/s. Karnal Cooperative Sugar Mills Limited, P.O. Karnal, District Karnal.
5. M/s. Sonapat Cooperative Sugar Mills Limited, P.O. Sonapat, District Sonapat.

RAJASTHAN

1. The Mewar Sugar Mills Limited, Bhupalsagar, District Chitorgarh.
2. The Ganganagar Sugar Mills Limited, Sri Ganganagar P.O., District Sri Ganganagar.
3. Sri Keshoraipatan Sahakari Sugar Mills Limited, P.O. Keshoraipatan, District Bundi.

WEST UTTAR PRADESH

1. Modi Industries Limited, Modinagar, District Meerut.
2. The U.P. State Sugar Corporation Limited, Unit Mohiuddindpur, P.O. Mohiuddindpur, District Meerut.
3. Jaswant Sugar Mills Limited, Meerut City, District Meerut.
4. Daurala Sugar Works, Daurala, District Meerut.
5. The U.P. State Corporation Limited, Unit Sakhoti Tanda, P.O. Sakhoti Tanda, District Meerut.
6. Mawana Sugar Works, Mawana, District Meerut.
7. The Bagpat Cooperative Sugar Mills Limited, P.O. Bagpat, District Meerut.
8. M/s. Ramala Sahakari Chini Mills Limited, P.O. Ramala, District Meerut.
9. The Simbholi Sugar Mills Private Limited, P.O. Simbholi, District Meerut.
10. The Triveni Engineering Works Limited, Sugar Unit, The Upper India Sugar Mills, Khatauli, District Muzaffarnagar.
11. Swarup Vegetable Products Industries Limited, Mansurpur, District Muzaffarnagar.
12. The Amritsar Sugar Mills Company Limited, Rohanakalan, P.O. Rohana Mills, District Muzaffarnagar.
13. The Upper Doab Sugar Mills Limited, Shamli, District Muzaffarnagar.
14. The Pannijee Sugar and General Mills Company, Panninagar, District Bulandshahr.
15. Shri Janki Sugar Mills and Company, Doiwala, District Dehradun.
16. Gangeshwar Limited, Deoband, District Saharanpur.
17. The Lord Krishna Sugar Mills Limited, Saharanpur, District Saharanpur.
18. Kisan Cooperative Sugar Factory Limited, P.O. Sarasawa, District Saharanpur.
19. Rai Bahadur Narain Singh Sugar Mills Private Limited, Lhaksar, District Saharanpur.
20. The Mahalakshmi Sugar Mills Company Limited, Iqbalpur P.O. District Saharanpur.
21. Kisan Sahkari Chini Mills Ltd., Anoopshahr, P.O. Jehangirabad, District Bulandshahr.

1. Shiv Prasad Banarsidas Sugar Mills, Bijnor, District Bijnor.
2. Upper Ganges Sugar Mills Limited, Seohara, District Bijnor.
3. The Dhampur Sugar Mills Limited, P.O. Dhampur, District Bijnor.
4. The Ajudhia Sugar Mills, P.O. Rajaka Sahaspur, District Moradabad.
5. Kundan Sugar Mills Private Limited, Amroha, District Moradabad.
6. Raza Buland Sugar Company Limited, P.O. Rampur, District Rampur.
7. H.R. Sugar Factory Private Limited, Bareilly, District Bareilly.
8. The Kesar Sugar Works Limited, Behari, District Bareilly.
9. Rosa Sugar Works of Carew and Company Limited, Rosa, District Shahjhanpur.
10. L. H. Sugar Factories Limited, Pilibhit, District Pilibhit.
11. The Kisan Cooperative Sugar Factory Limited, Majhola, District Pilibhit.
12. L. H. Sugar Factories and Oil Mills Private Limited, Kashipur, District Nainital.
13. The Bazpur Cooperative Sugar Factory Limited, Bazpur, District Nainital.
14. The Kichha Sugar Company Limited, Kichha, District Nainital.
15. The Ncoli Sugar Factory, Manpurnagar, P.O. Ncoli, District Etah.
16. The Oudh Sugar Mills Limited, Hargaoon, District Sitapur.
17. The Lakshmiji Sugar Mills Private Limited, Maholi, District Sitapur.
18. M/s. Kisan Sahakari Chini Mills Limited P.O. Nadehi, District Nainital.
19. The Seksaria Biswan Sugar Factory Private Limited, Biswan, District Sitapur.
20. The Hindustan Sugar Mills Limited, Golagokarannath, District Kheri.
21. The Gobind Sugar Mills Limited, P.O. Aira Estate, District Kheri.
22. Sharda Sugar and Industries Limited, P.O. Box No. 30, Palia District Kheri.
23. The Lakshmi Sugar and Oil Mills Limited, Hardoi, District Hardoi.
24. The Kisan Sahkari Chini Mills Limited, Kamganj, District Farrukhabad.
25. Kisan Sahkari Chini Mills Ltd., Setha (Harduaganj) P.O. Setha, District Aligarh.
26. M/s. Chhata Sugar Co. Limited, P.O. Chhata, District Mathura.
27. M/s. Chandpur Sugar Company Limited, P.O. Chandpur, District Bijnor.
28. M/s. Rudra Bilas Kisan Sahkari Chini Mills Limited, P.O. Bilaspur, District Rampur.
29. M/s. Bisalpur Kisan Sahkari Chini Mills Limited, P.O. Bisalpur, District Pilibhit.
30. M/s. Experimental Sugar Factory (National Sugar Institute) P.O. Kalyanpur, Kanpur.
31. M/s. Kisan Sahkari Chini Mills Limited, Budaun, P.O. District Budaun.

EAST UTTAR PRADESH

1. The Ratna Sugar Mills Company Limited, Shahganj, District Jaunpur.
2. K. M. Sugar Mills Private Limited, Motinagar Sugar Mills, P.O. Motinagar, District Faizabad.
3. The U.P. State Sugar Corporation Limited, Unit Barabanki, District Barabanki.

4. The Burhwal Sugar Mills Company Limited, Burhwal, District Barabanki.
5. R. B. Lachmandas Sugar and General Mills Private Limited, P.O. Jarwal Road, District Behrakh.
6. Balrampur Sugar Company Limited, Balrampur Factory Branch, Balrampur, District Gonda.
7. Tulsipur Sugar Company Limited, Tulsipur Factory Branch, P.O. Tulsipur, District Gonda.
8. The Nawabganj Sugar Mills Company Limited, P.O. Sugar Factory, Nawabganj, District Gonda.
9. The Saksaria Sugar Mills Private Limited, P.O. Bahnan, District Gonda.
10. The Basti Sugar Mills Company Limited, P.O. Watterganj, District Basti.
11. The Basti Sugar Mills Company Limited, P.O. Basti, District Basti.
12. The Madho Mahesh Sugar Mills Private Limited, P.O. Munderwa, District Basti.
13. Shri Anand Sugar Mills, P.O. Khalilabad, District Basti.
14. The Ganesh Sugar Mills, P.O. Anandnagar, District Gorakhpur.
15. Saraya Sugar Mills Private Limited, Sardarnagar, P.O. District Gorakhpur.
16. The U.P. State Sugar Corporation Ltd., P.O. Pipraich, District Gorakhpur.
17. The Punjab Sugar Mills Company Limited, P.O. Ghughli, District Gorakhpur.
18. Mahabir Sugar Mills Private Limited, P.O. Siswabazar, District Gorakhpur.
19. The U.P. State Sugar Corporation Limited, Unit Khadda, P.O. Razabazar Khadda, District Deoria.
20. Lakshmi Devi Sugar Mills Private Limited, Chitanni, P.O. District Deoria.
21. The Shankar Agro Industries Limited, Captainganj P.O., District Deoria.
22. The Ichwari Khetan Sugar Mills Limited, Lakshminganj P.O., District Deoria.
23. The Maheshwari Khetan Sugar Mills Private Limited, P.O. Ramkola, District Deoria.
24. Gangeshwar Limited, Ramkola, District Deoria.
25. Cawnpur Sugar Works Limited, Padrauna Factory Branch, P.O. Padrauna, District Deoria.
26. Cawnpur Sugar Works Limited, Kathkuriyan Factory Branch, P.O. Kathkuriyan, District Deoria.
27. The United Provinces Sugar Company Limited, P.O. Seorahi, District Deoria.
28. Shree Sitaram Sugar Company Limited, P.O. Baitalpur, District Deoria.
29. Cawnpore Sugar Works Limited, Gauri Factory Branch, P.O. Gauri Bazar, District Deoria.
30. Deoria Sugar Mills Limited, Deoria, P.O., District Deoria.
31. U.P. State Sugar Corporation Limited, Unit Bhatni, P.O. Bhatni, District Deoria.
32. The Partappur Sugar Mills Limited, P.O. Partappur, District Deoria.
33. The Kashi Sahakari Chini Mills Limited, Aurai, District Varanasi.
34. The Kisan Sahakari Chini Mills Limited, Rasra, District Ballia.
35. The Kisan Sahakari Chini Mills Limited, Azamgarh, District Azamgarh.
36. M/s. Nandganj-Sihori Sugar Company Limited, Village Sihori, P.O. Nandganj, Teh. Saidpur, District Ghazipur.
37. M/s. Nandganj-Sihori Sugar Company Limited, Daryapur Unit, District Rae-Bareilly.
3. The New Swadeshi Sugar Mills Limited, P.O. Narkatiaganj, District Champaran.
4. Champaran Sugar Company Limited, Barrah Factory Branch, P.O. Barachakia, District Champaran.
5. Shree Krishna Gyanoday Sugar Limited, P.O. Lauriya, District Champaran.
6. Motilal Padampat Udyog Limited (Sugar Mills Branch) Majhaullia, District Champaran.
7. The Sagauli Sugar Works Private Limited, P.O. Sagauli, District Champaran.
8. Gobind Sugar Mills Limited, Lessee of Shri Hanuman Sugar and Industries Limited, P.O. Motihari, District Champaran.
9. Champaran Sugar Company Limited, Chanpatia Factory Branch, P.O. Chanpatia, District Champaran.
10. Belsund Sugar Limited, P.O. Righa, District Muzaffarpur.
11. The Motipur Sugar Factory Private Limited, P.O. Motipur, District Muzaffarpur.
12. Sitalpore Sugar Works Limited, P.O. Garual, District Muzaffarpur.
13. Tirthut Cooperative Sugar Factory Limited, Ryam Factory, P.O. Darbhanga.
14. Lohat Sugar Works of the Darbhanga Sugar Company Limited, P.O. Lohat, District Darbhanga.
15. Sakri Sugar Works of the Darbhanga Sugar Company Limited, P.O. Sakri, District Darbhanga.
16. Samastipur Central Sugar Company Limited, Samastipur Factory Branch, P.O. Samastipur, District Darbhanga.
17. New India Sugar Mills Limited, Hassanpur Road, P.O. Hassanpur Sugar Mills, District Darbhanga.
18. Sasa Musa Sugar Works Private Limited, P.O. Sasa Musa, District Saran.
19. The Vishnu Sugar Mills Limited, P.O. Vishnu Sugar Mills, Gopalgunj, District Saran.
20. Shree Krishna Gyanoday Sugar Limited, Hathua, P.O. Mirganj, District Saran.
21. Bharat Sugar Mills Limited, P.O. Sidhwalia, District Saran.
22. Cawnpore Sugar Works Limited, Marhowrah Factory Branch, P.O. Marhowrah, District Saran.
23. New Savan Sugar Mills P.O. Siwan, District Siwan.
24. Shree Krishna Gyanoday Sugar Limited, P.O. Siwan, District Siwan.
25. The Behar Sugar Works, Branch of the Industrial Corporation Limited, P.O. Pachrukhi, District Saran.
26. Purnea Cooperative Sugar Factory Limited, Banman-khi (Bihar).

SOUTH BIHAR

1. South Bihar Sugar Mills Limited, P.O. Bihta, District Patna.
2. Guraru Chini Mills, P.O. Guraru Mills, District Gaya.
3. M/s. Mohini Sugar Mills Limited, Warisaliganj, District Gaya.

GUJARAT

1. Shri Khedut Sahakari Khand Udyog Mandli Limited, Sudar Bag, Bardoli, District Surat.
2. Shri Madhi Vibhag Khand Udyog Sahakari Mandli Limited, Madhi, District Surat.
3. Shri Chalthan Vibhag Khand Udyog Sahakari Mandli Limited P.O. Chalthan (Western Railway), District Surat.
4. The Sahakari Khand Udyog Mandli Limited, Gandevia Billimora, District Bulsar.
5. Shri Bilashwar Khand Udyog Khedut Sahakari Mandli Limited, P.O. Kodinar, District Amreli.
6. M/s. Shri Amreli Sahakari Krishi Khand Udyog Limited, Gavadka Village, District Amreli.
7. Shri Una Taluka Sahakari Khand Udyog Mandli Limited, P.O. Una (Serath) District Junagadh.

NORTH BIHAR

1. North Bihar Sugar Mills Limited, Bagaha, P.O. Nainpur, District Champaran.
2. Harinagar Sugar Mills Limited, P.O. Harinagar, District Champaran.

8. Charotar Sahakari Khand Udyog Limited, Palaj, Taluka Patlad, District Karia.
9. M/s. Shri Sayan Vibhag Sahakari Khand Udyog Mandli Limited, P.O. Sayan, Taluka Qlpad, District Surat.
10. M/s. Shree Maroli Vibhag Khand Udyog Sahakari Mandli Limited, P.O. Maroli, District Valsad.
11. M/s. Shiv Valsad Sahakari Khand Udyog Mandli Limited, Parnera Pardi, District Valsad.
12. M/s. Shree Talala Taluka Sahakari Khand Udyog Mandli Limited, P.O. Talala (Gir), District Junagadh.
13. M/s. Shri Sardar Vallabhbhai Patel Khand Udyog Coop. Society Limited, Jamnavad Road, Dhoraji, District Rajkot.

MADHYA PRADESH

1. The Gwalior Sugar Company Limited, P.O. Dabra, District Gwalior.
2. The Jiwaji Rao Sugar Company Limited, P.O. Daluda, District Mandesaur.
3. Jaora Sugar Mills Private Limited, P.O. Jaora, District Ratlam.
4. Seth Govindram Sugar Mills, P.O. Meharpur Road, District Ujjain.
5. The Bhopla Sugar Industries Limited Sehore, District Sehore.
6. The Morena Mandal Sahakari Shakkar Karkhana Limited, Kailaras, District Morena.

MAHARASHTRA

1. The Ravalgaon Sugar Farm Limited, P.O. Ravalgaon, District Nasik.
2. Girna Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P.O. Malegaon, District Nasik.
3. Niphad Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P.O. Bhausaheb nagar, District Nasik.
4. The Sanjivani (Takli) Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P.O. Kopergaon, District Ahmednagar.
5. The Kopergaon Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P.O. Kolpewadi, District Ahmednagar.
6. The Godavari Sugar Mills Limited, P.O. Sakarwadi, District Ahmednagar.
7. The Godavari Sugar Mills Limited, P.O. Lakshmiwadi, District Ahmednagar.
8. Shree Changdeo Sugar Mills Limited P.O. Changdenagar, District Ahmednagar.
9. Shri Ganesh Sahakari Sakhar Karkhana Limited Ganeshnagar, P.O. Rajangaon Khurd, District Ahmednagar.
10. Ashok Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Ashoknagar, P.O. Shrirampur, District Ahmednagar.
11. Belapur Sugar and Allied Industries Limited, Hari-gaon, District Ahmednagar.
12. The Maharashtra Sugar Mills Limited, P.O. Tilaknagar, District Ahmednagar.
13. The Pravara Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P.O. Pravaranagar, District Ahmednagar.
14. The Rahuri Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Shri shivajinagar, Rahuri Factory Branch, P.O. District Ahmednagar.
15. The Shrigonda Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Shrigonda, P.O. Belvandi, District Ahmednagar.
16. Sangemner Bhag Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P.O. Sangamner, District Ahmednagar.
17. Shridhyaneshwar Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Bhande BK Tal. Newasa, District Ahmednagar.
18. Gangapur Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P.O. Raghunathnagar, Tharka Gangapur, District Aurangabad.
19. M/s. Sidheshwar Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P.O. Silod, District Aurangabad.
20. Kamnad Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Kamnad District Aurangabad.
21. M/s. Vinevak Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Parsoda, Tal. Vijapur, District Aurangabad.
22. Shri Someshwar Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Nira, District Poona.
23. The Malegaon Sahakari Sahakari Karkhana Limited, P.O. Malegaon, B. K. Taluka Baromanti, District Poona.

24. Shri Chhatrapati Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P.O. Bhavaninagar, Taluka Indapur, District Poona.
25. Yeshwant Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Theur, P.O. Theur, Taluka Haveli, District Poona.
26. Walchandnagar Industries Limited, P.O. Walchandnagar, District Poona.
27. Yeshwant Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P.O. Akluj, District Sholapur.
28. The Saswad Mali Sugar Factory Limited, P.O. Mallnagar, District Sholapur.
29. Birma Sugar Syndicate Limited, P.O. Shreepur, District Sholapur.
30. Shree Shankar Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Sadashivnagar, Taluka Malshiras, District Sholapur.
31. Shree Sidheshwar Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Kumathe, Taluka North Sholapur, District Sholapur.
32. The Phaltan Sugar Works Limited, P.O. Sakharwadi, District Satara.
33. Shrirani Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P.O. Phaltan, District Satara.
34. Krishna Sahakari Sakhar Karkhana Limited Rethare Budruk, P.O. Shivnagar, District Satara.
35. Satara Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Bhunj, District Satara.
36. Balasaheb Desai Sahakari Karkhana Limited, Marali, Tal. Patan, District Satara.
37. Sahyadri Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Yeshwant Nagar, Tal. Karad, District Satara.
38. Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P.O. Sangali, District Sangali.
39. The Walwa Taluka Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Sakharale Islampur Post Office, District Sangali.
40. Vishwas Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Yeshwantnagar, Taluka Shirala, District Sangali.
41. Shree Warana Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P.O. Waranagar, District Kolhapur.
42. The Kolhapur Sugar Mills Limited, Kasaba Bavada, P.O. Kolhapur, District Kolhapur.
43. Shree Panchangarga Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P.O. Ichalkaranji, District Kolhapur.
44. The Bhogwati Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P.O. Shahunagar (Parite), District Kolhapur.
45. Khumbi Ketari Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Kunditre, P.O. Koparde, Taluka Karveer, District Kolhapur.
46. Shri Dudhganga Vedganga Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Bidri, Post Office Mouninagar, Taluka Nagal, District Kolhapur.
47. Shree Datta Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Asurle, Tehsil Panhela, District Kolhapur.
48. Shree Datta Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Shirol, Taluka Shirol, District Kolhapur.
49. Terna Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P.O. Dhoki, District Osmanabad.
50. M/s. Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Killari, District Osmanabad.
51. Shri Satpuda Tapi Parisar Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Lonkhoda, Taluka Shahada, District Dhulia.
52. Shri Panzarakan Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Bhadna, Taluka Sakri, District Dhulia.
53. Vasant Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Pusad, District Yeotmal.
54. Kalambar Vibhag Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Kalambar, Taluka Kandhar, District Nanded.
55. Marathawada Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Post Dongarkada, Taluk Kalamnuri, District Parbhani.
56. Ambajogai Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Ambajogai, District Bhir.
57. Madhukar Sahakari Sakhar Karkhana, Maryadit, Nhevi Marg, Faizpur, District Jalgaon.
58. M/s. Vasant Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Kasoda, Taluka Erandole, District Jalgaon.
59. M/s. Jai Bhavani Cooperative Sugar Factory Limited, P.O. Georai, District Bhir.
60. M/s. Daulat Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Yeshwantnagar, Taluka Chandgad, District Kolhapur.

61. Belganga Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P.O. Bhoras, Taluka Chalisgaon, District Jalgaon.
62. M/s. Shri Vridheshwar Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Kasaba Pimpalgaon, Taluka Pathardi District Ahmednagar.
63. M/s. Shri Jagdamba Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Rashim, Tehsil Karjat, District Ahmednagar.
64. M/s. Jijamata Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Dasarbid, Tq. Mehkar, District Buldana.
65. M/s. Karmaveer Kakasaheb Wagh Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Kakasaheb Nagar, Post Ranward Tal. Niphad, District Nasik.
66. M/s. Kadwa Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P.O. Materewadi, Tal. Dindori, District Nasik.
67. M/s. Nasik Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Pulse, District Nasik.
68. M/s. Mula Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P.O. Sonai, Tal. Newasa, District Ahmednagar.
69. M/s. Kada Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P.O. Kada, Tal. Ashti, District Beed.
70. M/s. Gadhinglaj Taluka Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P.O. Gadhinglaj, District Kolhapur.

GOA

1. Sanjivani Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Usgaon, Tisk, Goa.

KARNATAKA

1. The Ugar Sugar Works Ltd., P.O. Ugar Khurd, District Belgaon.
2. Hiranyakeshi Sahakari Sakhar Karkhana, Niyamit, P.O. Sankeshwar, District, Belgaon.
3. Shri Malaparbha Cooperative Sugar Factory Ltd., M. K. Hubli, District Belgaum.
4. M/s. Shree Doodhaganga Krishna Sahakari Sakhar Karkhana Niyamit, Chikodi, District Belgaum.
5. The Salar Jung Sugar Mills (A division of India Sugars and Refineers Ltd.) P.O. Munirabad, District Raichur.
6. The India Sugar and Refineers Ltd., P.O. Hospet, District Bellary.
7. The Kampli Cooperative Sugar Factory Ltd., P.O. Kampli, District Bellary.
8. Kothari Sugars and Chemicals Ltd., P.O. Siruguppa, District Bellary.
9. Shri Mukesh Textile Mills Private Ltd. (Thungabhadra Sugar Works) P.O. Shimoga, District Shimoga.
10. Pandavapura Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Pandavapura, District Mandya.
11. The Mysore Sugar Company Ltd., P.O. Mandya, District Mandya.
12. Chamundeswari Sugar Ltd., Kalamunddana Daddi, District Mandya.
13. Gauribidanur Sahakari Sakhare Karkhana Ltd., Gauribidanur P.O., District Kolar.
14. Bidar Sahakare Sakhare Karkhana Ltd., Bidar, District Bidar.
15. Vanivilasa Cooperative Sugar Factory Ltd., Hiriyur Chitradurga District.
16. Devangere Sugar Co. Ltd., Kukkarada, Devangere Taluk, District Chitradurga.
17. Somaiya Sugar Works, Semmerwadi Via Mahalingpur District Bijapur.
18. Sri Mahadeswara Sahakara Sakhare Karkhane Ltd., Kollegel District.
19. Gargawati Sugars Ltd., Sriramnagar Post, District Raichur.
20. Rajbhag Sahakari Sakhare Karkhane Niyamit, P.O. Budihal, Taluk Rajbhag, District Belagaum.
21. M/s. Bhadra Sahakari Sakhare Karkhane Niyamit, Doddabathi, Davangere Tq. Dt. Chitradurga.

ANDHRA PRADESH

1. Shree Rama Sugars and Industries Ltd., Sethanagarani, District Srikakulam.

2. Sri Rama Sugars and Industries Ltd., Bobbili, District Srikakulam.
3. Amadalavalasa Cooperative Agricultural and Industrial Society Ltd., P.O. Amadalavalasa, District Srikakulam.
4. Anakapalle Cooperative Agricultural and Industrial Society Ltd., Thummapala, P.O. Anakapalle, District Visakhapatnam.
5. The Etikoppaka Cooperative Agricultural and Industrial Society Ltd., P.O. Etikoppaka, District Visakhapatnam.
6. The Chodavaram Cooperative Sugars Ltd., P.O. Govada, District Visakhapatnam.
7. The Thandava Cooperative Sugars Ltd., P.O. Paya-karaopeta, District East Godavari.
8. The Kirlampudi Sugar Mills Ltd., Pithapuram, District East Godavari.
9. The Deccan Sugar and Abkari Co. Ltd., P.O. Samalkot, District Godavari.
10. Sri Sarvaraya Sugars Ltd., Chelluru, District East Godavari.
11. V. V. S. Sugars, P.O. Chegallu, District East Godavari.
12. The Andhra Sugars Ltd., P.O. Tanuku, District West Godavari.
13. The Palakol Cooperative Agricultural and Industrial Society Ltd., P.O. Palakol, District West Godavari.
14. The West Godavari Cooperative Sugars Ltd., Bhimadole, District West Godavari.
15. Challapalli Sugar Ltd., P.O. Challapalli, District Krishna.
16. The K. C. P. Ltd. Vuyyuru, District Krishna.
17. The Nizam Sugar Factory Ltd, Shakarnagar, District Nizamabad.
18. The Nizamabad Cooperative Sugar Factory Ltd, P.O. Nizamabad, District Nizamabad.
19. The Chittor Cooperative Sugars Ltd., P.O. T. Savatapalle District Chittor.
20. The Nizam Sugar Factory, Zahirabad, P.O. Didgi, District Medak.
21. M/s. Vijayarama Gajapeti Agri. and Industrial Society Limited, P.O. Bheemasingi, District Visakhapatnam.
22. M/s. Cuddapah Coop. Sugar Factory Ltd. C/o Ramesh Talkies, Cuddapah (Location Near Chennai District Cuddapah).
23. M/s. Nizam Sugar Factory Ltd., P.O. Miryalguda, District Nalgonda.
24. M/s. Kovur Cooperative Sugar Factory Ltd., Pothireddypalam P.O. Kovur Talu, District Nellore.
25. M/s. Sri Venkateswara Cooperative Sugar Factory Ltd., (Tirupati) P.O. Gazulamandam, District Chittoor.
26. M/s. Nizam Sugar Factory Ltd., Near Parigi, P.O. Hindupur, District Anantapur.

TAMILNADU

1. The Ambur Cooperative Sugar Mills Ltd., Vedapudupet, P.O. Ambar, District North Arcot.
2. Madurantakam Cooperative Sugar Mills Ltd., Padalam, District Chingleput.
3. E.I.D. Parry Limited Nellikuppam, District South Arcot.
4. South India Steel and Sugars Limited, Mundiampakkam, Taluka Villupuram, District South Arcot.
5. Aruna Sugars Limited, Pannadam, District South Arcot.

6. The Kallakurichi Cooperative Sugar Mills Ltd., District Moongilthuraipattu (South Arcot).
7. Thiru Arooran Sugars Ltd., P.O. Vandapathimangalam, District Tanjore.
8. Kothari Sugar and Chemicals Ltd., Lalgudi, District Tiruchirappalli.
9. Cauvery Sugars and Chemicals Ltd., Cauvery Factory P.O. Pattaivayal, District Tiruchirappalli.
10. The Deccan Sugar and Abkari Company Ltd., Pugalur Sugar Factory, District Tiruchirappalli.
11. The Salem Cooperative Sugar Mills Ltd., Mahanur Via Karur, District Salem.
12. Sakthi Sugars Ltd., Sakthinar, P.O. Erode, District Coimbatore.
13. Amaravathi Cooperative Sugar Mills Ltd., Krishnapuram East, District Coimbatore.
14. Madura Sugars Ltd., Pandiorajapuram District Madurai.
15. The National Cooperative Sugar Mills Ltd., Alanganallur P.O. District Madurai.
16. The Dharamapuri District Cooperative Sugar Mills Limited, Palacode, Dharamapuri District.
17. M/s. Tirupattur Sugars Ltd., Tirupattur, District North Arcot.
18. M/s. Vellore Coop. Sugar Mills Ltd., No. D-5, Village. District North Arcot, (Location Thiruvallam, Ammuntti village, Gudiyatham Taluka, Dt. North Arcot).
19. M/s. Tamil Nadu Sugar Corporation Limited, Thanjavur, District Thanjavur.
20. M/s. Palar Sugars Pvt. Ltd., P.O. Mailbatti, District North Arcot.

PONDICHERRY

1. New Horizon Sugar Mills Company Ltd., Sacur (Aricur) Pondicherry.

ORISSA

1. Aska Cooperative Sugar Industries Ltd., P.O. Aska, District Ganjam.
2. Jeypore Sugar Co. Ltd., P.O. Rayagadey District Koraput.
3. The Bargarh Cooperative Sugar Mills Limited, P.O. Bargarh, District Sambalpur.

ASSAM

1. The Assam Cooperative Sugar Mills Limited, P.O. Barua Bamungaon, District Sibsagar.
2. M/s. Assam Industrial Development Corporation Ltd., Kannachal Road, Gauhati-3 (Location Chargola, District Cachar).

NAGALAND

1. Nagaland Sugar Mills Limited, Dimapur (Nagaland).

WEST BENGAL

1. The Ramuggar Cane and Sugar Company Ltd., P.O. Plassey, District Nadia.
2. M/s. Ahmedpur Sugar Mills, Ahmedpur, District Birbhum.

KERALA

1. The Travancore Sugars and Chemicals Ltd., Pamba River Factory, Tiravalla P.O., District Quilon.
2. Mannam Sugar Mills Cooperative Ltd., P.O. 4324-Pandalam P.O., District Alleppy.
3. The Cooperative Sugars Limited, Chittur, P.O. Mananpara, District, Palghat.

सां. कां. निं. 700(अ)/आ०. ४०/बी०.—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (3ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस आदेश का नाम चीनी (1979-80 में उत्पादित चीनी कीमत अवधारण) आदेश, 1979 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1979-80 मौसम में उत्पादित चीनी की कीमत.—केन्द्रीय सरकार इससे उपाखण्ड अनुसूची 1 और 2 के स्तम्भ (2) से (7) तक में विनिर्दिष्ट कीमतों को उन कीमतों के रूप में नियत करती है जो कि उसमें उल्लिखित भारतीय चीनी मानक (भा० ची० मा०) श्रेणियों की उस चीनी के लिए देय है जो 'ए' टिबल नए टाट के बोरो में पैक है और उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित सभी निम्नलिखित-कटाई चीनी कारखानों द्वारा, अर्थात् इससे उपाखण्ड अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट कारखानों द्वारा, 1979-80 में नैयार की गई है और केन्द्रीय सरकार द्वारा, लेवी चीनी प्रवाय (नियंत्रण) आदेश, 1979 के खण्ड 2 के उपखण्ड (1) के अधीन किये गए आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों, राज्य सरकारों के संगठनों को, जेता के विकल्प पर, क्रमशः (i) रेल वेगनों में, और (ii), जेता की गाड़ियों, लारियों या परिवहन के अन्य साधनों में, कारखाना द्वार/कारखाना गोदाम पर, परिवहन के लिए अपेक्षित है ;

परन्तु जहाँ कोई चीनी कारखाना निकटतम रेल स्टेशन से या रेल के किसी बाहरी अभिकरण से या कारखाने के बाहर गोदाम से, जिसका रेल सम्पर्क नहीं है, पांच किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है वहाँ उत्पादक, रेल द्वारा माल भेजे जाने की वशा में, चीनी कारखाने और ऐसे रेल स्टेशन या रेल के बाहरी अभिकरण के बीच या गोदाम द्वार पर परिधान की वशा में, चीनी कारखाने और ऐसे गोदाम के बीच की पांच किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए प्रति टिबल चीनी पर प्रति किलोमीटर एक पैसे की दर से प्रतिरिक्त प्रभार ले सकेगा।

स्पष्टीकरण:—इस आदेश में,—

(क) पूर्वोक्त अनुसूची 1 और 2 के स्तम्भ (2) से (7) तक में विनिर्दिष्ट कीमतों के अंतर्गत, उत्पाद शुल्क/प्रतिरिक्त उत्पाद-शुल्क, जो विक्रय कर के बदले में है और विशेष उत्पाद शुल्क सम्मिलित नहीं है, इसकी असूची उत्पादक सुसंगत समय पर प्रवृत्त वर पर, इस आदेश द्वारा अवधारित कीमतों के प्रतिरिक्त कर सकेगा।

(ख) पूर्वोक्त अनुसूची 1 के स्तम्भ (2) से (7) तक में विनिर्दिष्ट कीमतों के अंतर्गत, कारखाने के गोदामों से परिवहन का और जेता के विकल्प पर, रेल स्टेशन या उत्पादक द्वारा साधारणतः उपयोग किये जाने वाले साइडिंग पर रेल वेगनों में लदाई का खर्च भी है और उनमें साइडिंग या वेगन कर्षण, निभार और अन्य आनुषंगिक व्यय भी सम्मिलित है।

(ग) पूर्वोक्त अनुसूची 2 के स्तम्भ (2) से (7) तक में विनिर्दिष्ट कीमतों के अंतर्गत, कारखाने के गोदामों से परिवहन का और जेता के विकल्प पर, चीनी का गाड़ियों, लारियों या परिवहन के अन्य साधनों में, कारखाना द्वार/कारखाना गोदाम पर लदाई खर्च भी है और उनमें अन्य सभी आनुषंगिक व्यय सम्मिलित हैं।

(घ) भारतीय चीनी मानक (भा० ची० मा०) श्रेणियों से, निदेशक, राष्ट्रीय, शर्करा संस्थान, कानपुर द्वारा जारी की गई बोलियों में चीनी के मानक मुहरबन्द नमूनों द्वारा निरूपित श्रेणियां अभिप्रेत हैं, जो भारतीय मानक संस्थान द्वारा ब्रिहित मानकों के अनुरूप हैं।

अनुसूची 1

भारतीय शर्करा मानक श्रेणियों के लिए श्रेणी अनुसार रेल डिब्बों में परिवहन की दशा में (प्रति विवटल रूपों में) कीमतें

(उत्पादन शुल्क रहित)

क्षेत्र	भारतीय शर्करा मानक (भा० श० मा०)			शर्करा श्रेणियाँ		
	क-30	घ-30	ङ-30	क-29	घ-29	ङ-29
	ख-30 ग-30			ख-29 ग-29		
1	2	3	4	5	6	7
पंजाब	228.00	226.85	226.30	227.00	226.00	225.50
हरियाणा	229.29	228.14	227.59	228.29	227.29	226.79
राजस्थान	264.05	262.90	262.35	263.05	262.05	261.55
पश्चिमी उत्तर प्रदेश	234.49	233.34	232.79	233.49	232.49	231.99
मध्य उत्तर प्रदेश	237.15	236.00	235.45	236.15	235.15	234.65
पूर्वी उत्तर प्रदेश	280.57	279.42	278.87	279.57	278.57	278.07
उत्तरी बिहार	262.45	261.30	260.75	261.45	260.45	259.95
दक्षिणी बिहार	314.75	313.60	313.05	313.75	312.75	312.25
गुजरात	210.45	209.30	208.75	209.45	208.45	207.95
मध्य प्रदेश	256.77	255.62	255.07	255.77	254.77	254.27
महाराष्ट्र	214.88	213.73	213.18	213.88	212.88	212.38
कर्नाटक	235.45	234.30	233.75	234.45	233.45	232.95
आन्ध्र प्रदेश	227.43	226.28	225.73	226.43	225.43	224.93
तमिलनाडु और पाण्डिचेरी	243.92	242.77	242.22	242.92	241.92	241.42
असम, नागालैण्ड, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल	252.02	250.87	250.32	251.02	250.02	249.52
केरल और गोवा	246.52	245.37	244.82	245.52	244.52	244.02

अनुसूची 2

भा० श० मा० श्रेणियों के लिए श्रेणी अनुसार क्रेता की गाड़ियाँ, कारियों या परिवहन के अन्य साधनों से कारखाने के द्वार पर या कारखाने के गार्डम में परिवहन की दशा में (प्रति विवटल रूपों में) कीमतें

(उत्पादन शुल्क रहित)

क्षेत्र	भारतीय शर्करा मानक (भा० श० मा०)			शर्करा श्रेणियाँ		
	क-30	घ-30	ङ-30	क-29	घ-29	ङ-29
	ख-30 ग-30			ख-29 ग-29		
1	2	3	4	5	6	7
पंजाब	227.78	226.63	226.08	226.78	225.78	225.28
हरियाणा	229.01	227.86	227.31	228.01	227.01	226.51
राजस्थान	263.85	262.70	262.15	262.85	261.85	261.35
पश्चिमी उत्तर प्रदेश	234.29	233.14	232.59	233.29	232.29	231.79
मध्य उत्तर प्रदेश	236.95	235.80	235.25	235.95	234.95	234.45
पूर्वी उत्तर प्रदेश	280.36	279.21	278.66	279.36	278.36	277.86
उत्तरी बिहार	262.37	261.22	260.67	261.37	260.37	259.87
दक्षिणी बिहार	314.67	313.52	312.97	313.67	312.67	312.17
गुजरात	210.35	209.20	208.65	209.35	208.35	207.85
मध्य प्रदेश	256.60	255.45	254.90	255.60	254.60	254.10
महाराष्ट्र	214.58	213.43	212.88	213.58	212.58	212.08
कर्नाटक	235.27	234.12	233.57	234.27	233.27	232.77
आन्ध्र प्रदेश	227.16	226.01	225.46	226.16	225.16	224.66
तमिलनाडु और पाण्डिचेरी	243.82	242.67	242.12	242.82	241.82	241.32
असम, नागालैण्ड, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल	252.02	250.87	250.32	251.02	250.02	249.52
केरल और गोवा	246.52	245.37	244.82	245.52	244.52	244.02

अनुसूची 3

पंजाब

1. दी मोरिण्डा कोआपरेटिव शुगर मिलज लिमिटेड, मोरिण्डा, जिला रोपड़ ।
2. दी जगजीत शुगर मिलज कम्पनी लिमिटेड, फगवाड़ा, जिला कपूरथला ।
3. दी मालवा शुगर मिलज कम्पनी लिमिटेड, धुरी, जिला संगरूर ।
4. दी जनता कोआपरेटिव शुगर मिलज लिमिटेड, भोमपुर, पो० आ० हिला, जालन्धर ।
5. दी बोआबा कोआपरेटिव शुगर मिलज लिमिटेड, नवागढ़, जिला जालन्धर ।
6. दी बटाला कोआपरेटिव शुगर मिलज लिमिटेड, बटाला, जिला गुरदासपुर ।

हरियाणा

1. दी मरम्बरी शुगर मिलज, पो० आ० यमुनानगर, जिला ग्रमवाल ।
2. दी हरियाणा कोआपरेटिव शुगर मिलज लि०, पो० आ० रोहतक, जिला रोहतक ।
3. दी पानीपत कोआपरेटिव शुगर मिलज लि०, पो० आ० पानीपत, जिला करनाल ।
4. मैमर्स करनाल कोआपरेटिव शुगर मिलज लि०, पो० आ० करनाल, जिला करनाल ।
5. मैमर्स सोनीपत कोआपरेटिव शुगर मिलज लि०, पो० आ० सोनीपत, जिला सोनीपत ।

राजस्थान

1. दी मेवाड़ शुगर मिलज लि०, भोपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ ।
2. श्रीगंगानगर शुगर मिलज लि०, श्रीगंगानगर, पो० आ०, जिला श्रीगंगानगर ।
3. श्री केशोरपतन सहकारी शुगर मिलज लि०, पो० आ० केशोरपतन, जिला बूंदी ।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश

1. दी मोदी इण्डस्ट्रीज लि०, मोदीनगर, जिला मेरठ ।
2. बी यू० पी० स्टेट शुगर कार्पोरेशन लि०, यूनिट मोहिउद्दीनपुर, जिला मेरठ ।
3. जमवन्त शुगर मिलज लि०, मेरठ शहर, जिला मेरठ ।
4. बीगला शुगर वर्क्स, बीगला, जिला मेरठ ।
5. बी यू० पी० स्टेट शुगर कार्पोरेशन लि०, यूनिट सकोटीटाण्डा, जिला मेरठ ।
6. मथाना शुगर वर्क्स, मथाना, जिला मेरठ ।
7. दी बागपत कोआपरेटिव शुगर मिलज लि०, बागपत, जिला मेरठ ।
8. रमावा सहकारी चीनी मिलज लि०, पो० आ० रमावा, जिला मेरठ ।
9. दी सिम्भावली शुगर मिलज प्राइवेट लि०, पो० आ० सिम्भावली, जिला मेरठ ।
10. दी विवेणी इंजीनियरिंग वर्क्स लि०, शुगर यूनिट दी अरपर ठाँव शुगर मिलज खतोली, जिला मुजफ्फरनगर ।
11. स्वरूप वैजटेबल प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज लि०, मनसूरपुर, जिला मुजफ्फरनगर ।
12. दी अयनसर शुगर मिलज कं० लि०, रोहतास, पो० आ० रोहतास मिलज, जिला मुजफ्फरनगर ।
13. दी अरपर बोआबा शुगर मिलज लि०, शामली, जिला मुजफ्फरनगर ।
14. दी पक्षीजी शुगर अररस मिलज कं०, पक्षीनगर, जिला बुलन्दशहर ।
15. बी जानकी शुगर मिलज एण्ड कं०, बोईवाला, जिला देहरादून ।
16. गंगेश्वर लिमिटेड, देवबंद, जिला सहारनपुर ।

17. दी साई कृष्णा शुगर मिलज लि०, सहारनपुर, जिला सहारनपुर ।
18. दी किसान कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी लि०, पो० आ० मग्गावा, जिला सहारनपुर ।
19. रायबहादुर नारायण सिंह शुगर मिलज लि०, नक्सर, जिला सहारनपुर ।
20. दी महासहमी शुगर मिलज लि०, इक्बालपुर, पो० आ० जिला सहारनपुर ।
21. किसान सहकारी चीनी मिलज लिमिटेड, अनुपमहर, पो० आ० जटोगीरबाद, जिला बुलन्दशहर ।

मध्य उत्तर प्रदेश

1. शिव प्रसाद बनारसीधाम शुगर मिलज, बिजनौर, जिला बिजनौर ।
2. अरपर गंगेज शुगर मिलज लि०, सिउहाग, जिला बिजनौर ।
3. दी धामपुर शुगर मिलज लि०, पो० आ० धामपुर, जिला बिजनौर ।
4. दी अयुध्या शुगर मिलज, पो० आ० राजा का माहगपुर, जिला मुरादाबाद ।
5. कुन्दन शुगर मिलज प्रा० लि०, धर्मगढ़, जिला मुरादाबाद ।
6. राजा ब्रह्म शुगर कम्पनी लि०, पो० आ० रामपुर, जिला रामपुर ।
7. ए० ए० शुगर फैक्टरी प्रा० लि०, बरेली, जिला बरेली ।
8. दी केमर शुगर वर्क्स बेहेरी लिमिटेड, जिला बरेली ।
9. रोजा शुगर वर्क्स प्रा० लि०, रोजा, जिला शाहजहापुर ।
10. एन० ए० शुगर फैक्टरी लि०, पालीभीत, जिला पालीभीत ।
11. दी किसान कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी लि०, मसौरी, जिला पालीभीत ।
12. एन० ए० शुगर फैक्टरी एण्ड आयल मिलज प्रा० लि०, काशीपुर, जिला नैनीताल ।
13. दी बाअपुर कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी लि०, बाअपुर, जिला नैनीताल ।
14. दी किछा शुगर कम्पनी लिमिटेड, किछा, जिला नैनीताल ।
15. दी निशीली शुगर फैक्टरी, मनपूरगिरिया, पो० आ० निशीली, जिला ऐटा ।
16. दी अयध शुगर मिलज लि०, हरगांव, जिला सीतापुर ।
17. दी लक्ष्मी शुगर मिलज प्रा० लि०, महौली, जिला सीतापुर ।
18. मैमर्स किसान सहकारी चीनी मिलज लि०, पो० आ० तादेही, जिला नैनीताल ।
19. दी ससेरिया बिमवान शुगर फैक्टरी प्रा० लि०, विसदात, जिला सीतापुर ।
20. दी हिन्दुस्तान शुगर मिलज लि०, भोलागोकर्ननाथ, जिला खीरी ।
21. दी गोखिल शुगर मिलज लि०, पो० आ० गेरा स्टेट, जिला खीरी ।
22. शारदा शुगर एण्ड इंडस्ट्रीज लि०, पो० बाक्स 50, जिला पलिया, खीरी ।
23. दी लक्ष्मी शुगर एण्ड आयल मिलज लि०, हरदोई, जिला हरदोई ।
24. दी किसान सहकारी चीनी मिलज लि०, कईमगंज, जिला फर्रुखाबाद ।
25. किसान सहकारी चीनी मिलज लि०, मेथा (हरदुआगंज) पो० आ० मेथा, जिला अलीगढ़ ।
26. मैमर्स छाता शुगर कम्पनी लि०, पो० आ० छाता, जिला मथुरा ।
27. मैमर्स चन्वपुर शुगर कम्पनी लि०, पो० आ० चन्वपुर, जिला बिजनौर ।
28. मैमर्स रुद्रा बिलाम किसान सहकारी चीनी मिलज लि०, पो० आ० बिलामपुर, जिला रामपुर ।
29. मैमर्स बिलपुर किसान सहकारी चीनी मिलज लि०, पो० आ० बिलपुर, जिला पालीभीत ।
30. मैमर्स एक्सपेरिमेंटल शुगर फैक्टरी (मेशनल शुगर इस्टिब्यूट), पो० आ० कल्याणपुर, कानपुर ।
31. मैमर्स किसान सहकारी चीनी मिलज लि०, ब्याय, पो० आ० जिला बदाय ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश

1. दी बस्ता शहर मिलज कम्पनी लि०, शाहगंज, जिला जौनपुर ।
2. के० एम० शहर मिलज प्रा० लि०, मोतीनगर, जिला फैजाबाद ।
3. दी यू० पी० स्टेट शहर कारपोरेशन लि०, युनिट बैंक बाराबंकी, जिला बाराबंकी ।
4. दी बुढ़वाल शहर मिलज कम्पनी लि०, बुढ़वाल, जिला बाराबंकी ।
5. आर० बी० लक्ष्मणदास शहर एण्ड जनरल मिलज प्रा० लि०, पो० आ० जरवाल रोड, जिला बहराइच ।
6. बलरामपुर शहर कम्पनी लि०, बलराम फैक्ट्री ब्रांच, बलरामपुर, पो० आ० जिला गोंडा ।
7. तुलसीपुर शहर कम्पनी लि०, तुलसीपुर फैक्ट्री ब्रांच, तुलसीपुर, पो० आ० जिला गोंडा ।
8. दी नवाबगंज शहर मिलज कम्पनी लि०, पो० आ० शहर फैक्ट्री नवाबगंज, जिला गोंडा ।
9. दी सकसारिया शहर मिलज प्रा० लि०, पो० आ० बम्भान, जिला गोंडा ।
10. दी बस्ती शहर कम्पनी लि०, पो० आ० बाल्टरगंज, जिला बस्ती ।
11. दी बस्ती शहर मिलज कम्पनी लि०, बस्ती, जिला बस्ती ।
12. माधो महेश शहर मिलज प्रा० लि०, पो० आ० मण्डेरवा, जिला बस्ती ।
13. श्री आनन्द शहर मिलज लिमिटेड, खलीलाबाद, जिला बस्ती ।
14. श्री गणेश शहर मिलज कम्पनी लि०, पो० आ० आनन्दनगर, जिला गोरखपुर ।
15. सराया शहर मिलज प्रा० लि०, सरदारनगर, जिला गोरखपुर ।
16. मैसर्स यू० पी० स्टेट शहर कारपोरेशन लि०, पिपराइच, जिला गोरखपुर ।
17. दी पंजाब शहर मिलज कम्पनी लि०, घुघली, जिला गोरखपुर ।
18. महावीर शहर मिलज लि०, पो० आ० मिसवा बाजार, जिला गोरखपुर ।
19. दी यू० पी० स्टेट शहर कारपोरेशन लि० युनिट खड्डा, पो० आ० राजाबाजार खड्डा, जिला देवरिया ।
20. लक्ष्मी देवी शहर मिलज (प्रा०) लि०, छितीनी, जिला देवरिया ।
21. दी लंकर एम्बो इण्डस्ट्रीज लि०, कैपटनगंज, जिला देवरिया ।
22. दी ईश्वरी खेतान शहर मिलज लि०, लक्ष्मीगंज, जिला देवरिया ।
23. दी महेश्वरी खेतान शहर मिलज (प्रा०) लि०, पो० आ० राम-कोला, जिला देवरिया ।
24. गणेश्वर लिमिटेड, रामकोला, जिला देवरिया ।
25. कानपुर शहर वर्क्स लि०, कथकुर्छा फैक्ट्री ब्रांच, जिला देवरिया ।
26. कानपुर शहर वर्क्स लि०, पडरोना, फैक्ट्री ब्रांच, जिला देवरिया ।
27. दी यूनाइटेड प्रावि० शहर कम्पनी लि०, मिओराही, पो० आ०, जिला देवरिया ।
28. श्री सीताराम शहर मिलज कम्पनी लि०, बेतालपुर, पो० आ० जिला देवरिया ।
29. कानपुर शहर वर्क्स लि०, गोरी फैक्ट्री ब्रांच, पो० आ० गोरी बाजार, जिला देवरिया ।
30. देवरिया शहर मिलज लि०, देवरिया डाकघर, देवरिया ।
31. यू० पी० स्टेट शहर कारपोरेशन लि०, युनिट भटनी, पो० आ० भटनी, जिला देवरिया ।
32. दी प्रतापपुर शहर मिलज लि०, पो० आ० प्रतापपुर, जिला देवरिया ।
33. दी काशी सहकारी चानी मिलज लि०, औगाय, जिला बाराबंकी ।
34. दी किसान सहकारी चानी मिलज लि०, रमरा, जिला बलिया ।
35. दी किसान सहकारी चानी मिलज लि०, घाजमगढ़, जिला आजमगढ़ ।

36. मैसर्स मंगलज सिहोरी शहर कम्पनी लि०, राव मिश्री, पो० आ० नन्दगंज, तहसील मैयपुर, जिला गाजीपुर ।
37. मैसर्स नन्दगंज-मिश्री शहर कम्पनी लि०, दगियापुर युनिट, पो० आ० दरियापुर जिला राय बरेली ।

उत्तरी बिहार

1. नार्थ बिहार शहर मिलज लि०, बाया पो० आ० नरायपुर, जिला चम्पारन ।
2. हरिनगर शहर मिलज लि०, पो० आ० हरिनगर, जिला चम्पारन ।
3. दी न्यू स्वदेवी शहर मिलज लि०, तरकटियागंज, जिला चम्पारन ।
4. चम्पारन शहर कम्पनी लि०, आराह फैक्ट्री ब्रांच पो० आ० बाराबंकीया, जिला चम्पारन ।
5. श्री कृष्णा ज्ञानोदय शहर मिलज, लोरिया, पो० आ० जिला चम्पारन ।
6. मोतीलाल पदमपत उद्योग लि०, (शहर मिलज ब्रांच) मसोलिया, जिला चम्पारन ।
7. दी सुगौली शहर वर्क्स प्रा० लि०, पो० आ० सुगौली, जिला चम्पारन ।
8. गोविन्द शहर मिलज लि०, लेखा आफ दी श्री हनुमान शहर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, पो० आ० मोतीहारी, जिला चम्पारन ।
9. चम्पारन शहर कम्पनी लि०, चनपटिया फैक्ट्री ब्रांच, पो० आ० चनपटिया, जिला चम्पारन ।
10. वेलगुड शहर कम्पनी लि०, बाया पो० आ० जिला मुजफ्फरपुर ।
11. दी मोतीपुर शहर फैक्ट्री प्रा० लि०, मोतीपुर, जिला मुजफ्फरपुर ।
12. सीतलपुर शहर वर्क्स लि०, पो० आ० गरीम, जिला मुजफ्फरपुर ।
13. दी मिन्हाट ओब्रापेटिव शहर फैक्ट्री लि०, म्याम फैक्ट्री, पो० आ० जिला दरभंगा ।
14. लोहाट शहर वर्क्स आफ दी दरभंगा शहर कं० लि०, मोहाट पो० आ० जिला, दरभंगा ।
15. साकरी शहर वर्क्स आफ दी दरभंगा शहर कम्पनी लि०, साकरी, पो० आ० जिला दरभंगा ।
16. ममस्तीपुर सेन्ट्रल शहर कम्पनी लि०, ममस्तीपुर फैक्ट्री ब्रांच, पो० आ० ममस्तीपुर, जिला दरभंगा ।
17. न्यू इण्डिया शहर मिलज लि०, हमपुर रोड, पो० आ० हमनगर शहर मिलज, जिला दरभंगा ।
18. मामा मुसा शहर वर्क्स प्रा० लि०, मामा मुसा पो० आ०, जिला सारन ।
19. दी विष्णु शहर मिलज लि०, पो० आ० विष्णु शहर मिलज, गोपालगंज, जिला सारन ।
20. श्री कृष्णा ज्ञानोदय शहर लि०, हथुआ, पो० आ० मीरगंज, जिला सारन ।
21. भारत शहर मिलज लि०, मिथवालिया, पो० आ०, जिला सारन ।
22. कानपुर शहर वर्क्स लि०, सरहागह फैक्ट्री ब्रांच मरहोराह पो० आ०, जिला सारन ।
23. न्यू सावन शहर मिलज, पो० आ० मिथान, जिला सिवान ।
24. दी कृष्णा ज्ञानोदय शहर लि०, हथुआ पो० आ०, सिवान, जिला सिवान ।
25. दी बिहार शहर वर्क्स ब्रांच आफ दी इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि०, पो० आ० पंचखर्बा, जिला सारन ।
26. पूनिया सहकारी शहर फैक्ट्री लि०, बनमोखी (बिहार)

दक्षिणी बिहार

1. साऊथ बिहार शहर मिलज लि०, पो० आ० बीटा, जिला पटना ।
2. गुरारु फीमी मिलज, पो० आ० गुरारु मिलज, जिला गया ।
3. मैसर्स मोहिनी शहर मिलज लि०, धारीसानीगंज, जिला गया ।

गृहपाल

1. श्री छेदव गहकारी खाण्ड उद्योग मंडली लि०, मरदार बाग, बरदोली, जिला सूरत।
2. श्री माखी विभाग खाण्ड उद्योग मंडली लि०, माण्डोली, जिला सूरत।
3. श्री जलपान विभाग खाण्ड उद्योग मंडली लि०, पो० ग्रा० जलपान (वेस्टन गेलवे), जिला सूरत।
4. श्री गहकारी खाण्ड उद्योग मंडली लि०, गदवी विधिमीरा, जिला सलनगर।
5. श्री विनयग खाण्ड उद्योग मंडली लि०, कोडनगर, जिला अमरेली।
6. मैसर्स श्री अमरेली मंडली कृषि खाण्ड उद्योग लि०, गांधीनगर ग्राम, जिला अमरेली।
7. श्री ऊना तालुका मंडली खाण्ड उद्योग मंडली लि०, ऊना (पोरु) जिला अमरावती।
8. वारीनर मंडली खाण्ड उद्योग लि०, परगज, तालुका केनबाद, जिला कैरा।
9. मैसर्स श्री गयान विभाग मंडली खाण्ड उद्योग मंडली लि०, पो० ग्रा० गिमान, नहमील ओलपाद, जिला सूरत।
10. मैसर्स श्री सरोना विभाग खाण्ड उद्योग मंडली लि०, पो० ग्रा० सरोना, जिला अमरावती।
11. मैसर्स श्री बल्लाद मंडली खाण्ड उद्योग मंडली लि०, परनेरा पारद, जिला अमरावती।
12. मैसर्स श्री तलाता तालुका मंडली खाण्ड उद्योग मंडली लि०, पो० ग्रा० तलाता (शिर) जिला अमरावती।
13. मैसर्स श्री मरदार बल्लभसाई पटेल खाण्ड उद्योग कोआपरेटिव सोसायटी लि०, जमनाबाद रोड, धारवा, जिला राकोट।

मध्य प्रदेश

1. श्री खालियर शहर का लि०, पो० डबरी, जिला खालियर।
2. श्री जवाहीर राव शहर का लि०, दलावा, जिला मन्दसौर।
3. श्री जावड़ा शहर मिन्ज प्रा० लि०, जावड़ा, जिला रतलाम।
4. मेड गोविन्दराम शहर मिन्ज, पो० ग्रा० मेहीदपुर रोड, जिला उज्जैन।
5. श्री भोपाल शहर इण्डस्ट्रीज लि०, मेहौर, जिला मेहौर।
6. श्री मुरैना मंडल मंडली शस्कर कारखाना लि०, कलरम, जिला मुरैना।

महाराष्ट्र

1. श्री रावलगांव शहर वर्क्स लि०, पो० ग्रा० रावलगांव, जिला नासिक।
2. गिन्ना मंडली साखर कारखाना लि०, पो० ग्रा० वावहादी, माणेगाव, जिला नासिक।
3. निफाद मंडली साखर कारखाना लि०, पो० ग्रा० मारमाहूब नगर, जिला नासिक।
4. श्री मजीवली (तकली) मंडली कारखाना लि०, पो० ग्रा० कोपरगाव, जिला अहमदनगर।
5. श्री कोपरगाव मंडली साखर कारखाना लि०, पो० ग्रा० कलिववादी, जिला अहमदनगर।
6. श्री गोदावरी शहर मिन्ज लि०, पो० ग्रा० माबरवादी, जिला अहमदनगर।
7. श्री गोदावरी शहर मिन्ज लि०, पो० ग्रा० मधमीवादी, जिला अहमदनगर।
8. श्री चांगदेव शहर मिन्ज लि०, पो० ग्रा० चांगदेव नगर, जिला अहमदनगर।
9. श्री गणेश मंडली साखर कारखाना लि०, गणेशनगर, पो० ग्रा० रंजनगांव खुर्द, जिला अहमदनगर।

10. श्रीमोक मंडली साखर कारखाना लि०, श्रीमोक नगर, पो० ग्रा० श्रीमोकपुर, जिला अहमदनगर।
11. श्री महाराष्ट्र शहर मिन्ज लि०, पो० ग्रा० तिलक नगर, जिला अहमदनगर।
12. बेलापुर शहर एण्ड एलाइड इंडस्ट्रीज लि०, हरी गांव, जिला अहमदनगर।
13. श्री प्रवाग मंडली साखर कारखाना लि०, पो० ग्रा० प्रवाग, जिला अहमदनगर।
14. श्री राहुरी मंडली साखर कारखाना लि०, श्री निवाजी नगर, पो० ग्रा० राहुरी फैक्ट्री बाग, जिला अहमदनगर।
15. श्री श्री गोडा मंडली साखर कारखाना लि०, श्री गोडा, पो० ग्रा० बेलवन्दी, जिला अहमदनगर।
16. संगमनेर भाग मंडली साखर कारखाना लि०, संगमनेर, जिला अहमदनगर।
17. श्री शशिधर मंडली शस्कर कारखाना लि०, शरदे बी० के० ताल तलावा, जिला अहमदनगर।
18. गंगापुर मंडली साखर कारखाना लि०, पो० ग्रा० रणनाथ नगर ता० गंगापुर, जिला औरंगाबाद।
19. मैसर्स श्री मिडेश्वर मंडली साखर कारखाना लि०, मिलोद, जिला औरंगाबाद।
20. कन्नड मंडली साखर कारखाना लि०, कन्नड, जिला औरंगाबाद।
21. मैसर्स धितायक मंडली साखर कारखाना लि०, परगोदा, ताल वैजथापुर, जिला औरंगाबाद।
22. श्री सोमेश्वर मंडली साखर कारखाना लि०, पो० ग्रा० नौरा, जिला पूना।
23. श्री भोलगाव मंडली साखर कारखाना लि०, पो० ग्रा० मालेगाव बी०के० ता० वारामती, जिला पूना।
24. श्री छवपति मंडली साखर कारखाना लि०, पो० ग्रा० भवानी नगर, ता० इन्वापुर, जिला पूना।
25. बालचन्द नगर इण्डस्ट्रीज लि०, पो० ग्रा० बालचन्द नगर, जिला पूना।
26. यशवन्त मंडली साखर कारखाना लि०, पो० ग्रा० श्रीधर, तालुका हवेली, जिला पूना।
27. यशवन्त मंडली साखर कारखाना लि०, पो० ग्रा० अक्षमज, जिला सोलापुर।
28. श्री सासबद भाली शहर फैक्ट्री लि०, पो० ग्रा० सासोनगर, जिला सोलापुर।
29. श्री ब्रह्मा शहर मिन्ज लि०, पो० ग्रा० श्रीपुर, जिला सोलापुर।
30. श्री शकर मंडली साखर कारखाना लि०, मवाशिव नगर, ताल मलशीरस, जिला सोलापुर।
31. श्री मिडेश्वर शस्कर कारखाना लि०, कुमाठे तालुका उरली, सोलापुर, जिला सोलापुर।
32. श्री फालटान शहर वर्क्स लि०, पो० ग्रा० माखरवादी, जिला मतारा।
33. श्री राम मंडली साखर कारखाना लि०, पो० ग्रा० फलटन, जिला मतारा।
34. कृष्ण मंडली साखर कारखाना लि०, रिठारे बरमक, पो० ग्रा० शिवनगर, जिला मतारा।
35. मतारा मंडली साखर कारखाना लि०, मुखिज, जिला मतारा।
36. बाबा साहब देसाई मंडली शस्कर कारखाना लि०, मरीवी, ताल पटन, जिला मतारा।
37. महादारी मंडली साखर कारखाना लि०, यशवन्त नगर, ताल कराद, जिला मतारा।
38. शेनकारी मंडली साखर कारखाना लि०, पो० ग्रा० सांगली, जिला सांगली।

39. श्री वाल्मा तालुका सहकारी साखर कारखाना लि०, मखराली इस्लामपुर पो० ब्रा०, जिला मंगली ।
40. विश्राम सहकारी साखर कारखाना लि०, यशवन्त नगर, तालुक शिराला, जिला मंगली ।
41. दो वाराणा सहकारी साखर कारखाना लि०, पो० ब्रा० ब्रागनगर, जिला कोल्हापुर ।
42. दी कोल्हापुर शूगर मिल लि०, करवा बवादा, पो० ब्रा० कोल्हापुर, जिला कोल्हापुर ।
43. श्री पंचगंगा सहकारी साखर कारखाना लि०, पो० ब्रा० इन्वेल-केरीजी, जिला कोल्हापुर ।
44. श्री भामवाली सहकारी साखर कारखाना लि० पो० ब्रा० माहु-नगर० (पारीती), जिला कोल्हापुर ।
45. कुम्भ केमारी सहकारी साखर कारखाना लि०, कुर्दातर पो० ब्रा० कापरदे, जिला कोल्हापुर ।
46. श्री दधगंगा वेदगंगा सहकारी साखर कारखाना लि०, विदरी पो० ब्रा० मोषीनगर, जिला कोल्हापुर ।
47. श्री दत्ता सहकारी शक्कर कारखाना लि०, भ्रसूरमे, तहसील पन्हेला, जिला कोल्हापुर ।
48. श्री दत्ता शेतकारी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, शिंगल, तालुका शिंगल, जिला कोल्हापुर ।
49. तेरना शेतकारी सहकारी साखर कारखाना लि०, धाकी पो० ब्रा०, जिला भोसमानाबाद ।
50. मैसर्स शेतकारी सहकारी साखर कारखाना लि०, किलारी, जिला भोसमानाबाद (महाराष्ट्र) ।
51. श्री सनपुद्गा तापी सहकारी साखर कारखाना लि०, थोलखेडा, ताल गहादा, जिला धुलिया ।
52. श्री पंजाबन सहकारी साखर कारखाना लि०, माडन, ताल० सकरी, जिला धुलिया ।
53. बसन्त सहकारी शक्कर कारखाना लि०, फूमिद, जिला यवतमाल ।
54. कलम्बर विभाग सहकारी साखर कारखाना लि०, कालमवार, ताल कपार, जिला नानदेड ।
55. मारठवादा सहकारी साखर कारखाना लि०, पा० डोरारकडा, तालुक बलमपुरी, जिला परभानी ।
56. भ्रम्भाजोगई सहकारी साखर कारखाना लि०, भ्रम्भाजोगई, जिला भीर ।
57. भवुकर सहकारी साखर कारखाना, मर्यावित, देशी मार्ग फैजपुर, जिला जलगांव ।
58. मैसर्स बसन्त सहकारी साखर कारखाना लि०, कोसाखा, तालुक हरानखोल, जिला जलगांव ।
59. मैसर्स जयनवानी कोम्प्रापरेटिव शूगर फैक्ट्री लि०, पो० ब्रा० जोरई, जिला भीर ।
60. मैसर्स दोलत शेतकारी सहकारी साखर कारखाना लि०, यश-वन्तनगर, तालुक जाम्बगड, जिला कोल्हापुर ।
61. मैसर्स बेलगंगा सहकारी साखर कारखाना लि०, पो० ब्रा० भारत, तालुका, चावीसगांव, जिला जलगांव ।
62. मैसर्स श्री बुबेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि०, कसाना, पिपलगांव, तालुक, पठादरी, जिला अहमदनगर ।
63. मैसर्स श्री जगपम्भा सहकारी साखर कारखाना लि०, राशोम, तहसील करजात, जिला अहमदनगर ।
64. मै० जीजामाता सहकारी साखर कारखाना लि०, दमारविंद, ता० मेहकार, जिला बुलढाना ।
65. मैसर्स कर्मवीर काकासाहेब बाध सहकारी शक्कर कारखाना लि०, काकासाहेब नगर, पो० ब्रा० रनवाड, जिला नासिक ।
66. मैसर्स काडवा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० ब्रा० मातृ-बाडी, तालुक भिमखोरी, जिला नासिक ।
67. मैसर्स नासिक सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पापसे, जिला नासिक ।

68. मैसर्स मूला सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० ब्रा० सोनाई, तालुक निवासा, जिला अहमदनगर ।
69. मैसर्स काडा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० ब्रा० काडा, तालुक अस्ती, जिला बीड ।
70. मैसर्स गांधी राज तालुक सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० ब्रा० गांधी राज, जिला कोल्हापुर ।

गोवा

1. मजीदनी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, उमगाव, थिम्क, गोवा ।

कर्नाटक

1. दी उगर शूगर वर्क्स लि०, पो० ब्रा० उगर खुर्द, जिला बेल्गांव ।
2. द्विगुणाकांशी सहकारी शक्कर कारखाना नियमित, पो० ब्रा० लक्ष्मेश्वर, जिला बेल्गांव ।
3. श्री मालवीया कोम्प्रापरेटिव शूगर फैक्ट्री लि०, एम० के० हुगली, जिला बेल्गांव ।
4. मैसर्स श्री दूधगंगा कृष्णा सहकारी शक्कर कारखाना नियमित, चिकीडी, जिला बेल्गांव ।
5. दी शासारज्य शूगर मिल (ए इन्वीजन आफ इंडिया शूगर तथा रिफायनरी लि०) मनीराबाद, जिला रेवूर ।
6. दी इंडिया शुगर एण्ड रिफाइनरी लि० हानवेड, जिला बिलारी ।
7. दी काम्पनी कोम्प्रापरेटिव शूगर फैक्ट्री लि०, काम्पनी शूगर फैक्ट्री, पो० ब्रा० जिला बिलारी ।
8. मैसर्स कोठागे शूगर एण्ड कैमिकल, पो० ब्रा० मिसगुपा, जिला बेल्गरी ।
9. श्री सुकेश टेक्सटाइल मिल ब्रा० लि०, (तुगमदा शूगर वर्क्स), शिमोगा, जिला शिमोगा ।
10. पाण्डवपुर सहकारी साखर कारखाना लि०, पाण्डवपुर, जिला मांडिया ।
11. दी मैसूर शूगर कम्पनी लि०, माण्ड्या, जिला माण्ड्या ।
12. मैसर्स चयन देसबानी शूगर लि०, बलशुद्धता (दोहरी), जिला माण्ड्या (कर्नाटक) ।
13. गोरी बिदानूर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, गोरीबिदानूर, जिला कोलार ।
14. बिदार सहकारी शक्कर कारखाना लि०, बिदार, जिला बिदार ।
15. दाणी विलास कोम्प्रापरेटिव शूगर फैक्ट्री लि०, हीरीपुर, जिला चित्रादुर्गा ।
16. देवनगिरी शूगर कम्पनी लि०, खुबरीदा, तालुका, देवनगिरी, जिला चित्रादुर्गा ।
17. सुमह्या शूगर वर्क्स, शमीरवाडी, महामिगपुर, जिला बीजापुर ।
18. श्री महावेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, कोनेगल जिला ।
19. गंगावती शूगर लि०, श्रीरामनगर पोस्ट, जिला रायचूर ।
20. रायभाग सहकारी शक्कर कारखाना नियमित, पो० ब्रा० बुडीग्राल, तालुक रायभाग ।
21. मैसर्स भद्रा सहकारी शक्कर कारखाना नियमित, दोदावायो, शायगीरी तालुका जिला चित्रादुर्गा ।

आन्ध्र प्रदेश

1. श्री गमा शूगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, शिवना ग्राम, जिला श्रीकाकुलम ।
2. श्री रामा शूगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, बोबिली, जिला श्रीकाकुलम ।
3. भ्रमादालावालासा कोम्प्रापरेटिव एग्रीकल्चरल एण्ड इण्डस्ट्रीयल सोसाइटी लि०, भ्रमादालावालामा पो० ब्रा० जिला श्रीकाकुलम ।
4. नाकापाण कोम्प्रापरेटिव एग्रीकल्चरल एण्ड इण्डस्ट्रीयल सोसाइटी लि०, धुमापाण, पो० ब्रा० भ्रनाकापाले, जिला विशाखापटनम ।

5. डी एंटीकोपाका कोआपरेटिव एग्रीकल्चरल इण्डस्ट्रीयल सोसाइटी लि०, पो० आ० एंटीकोपा, जिला विशाखापटनम।
6. दी बोदावरम, कोआपरेटिव शूगर लि०, डाकखाना गावार्दी, जिला विशाखापटनम।
7. दी आण्डवा कोआपरेटिव शूगर लि०, पो० आ० पथाकारेपेटा, जिला ईस्ट गोदावरी।
8. दी किरलामुर्ग शूगर मिल्स लि०, पियापुरम, जिला ईस्ट गोदावरी।
9. दी दक्खन शूगर एण्ड आबकारी क० लि० पो० आ० समलकोट, जिला ईस्ट गोदावरी।
10. श्री मरवम्या शूगर, लि० जेनूर जिला पूर्व गोदावरी।
11. वी० वी० एग० शूगर, पो० आ० यगलू, जिला पश्चिमी गोदावरी।
12. दी आन्ध्र शूगर लि०, तालुक जिला पश्चिमी गोदावरी।
13. दी पारमकील कोआपरेटिव एग्रीकल्चरल एण्ड इंडस्ट्रीयल सोसाइटी लि०, पो० आ० पोलाकाल, जिला पश्चिमी गोदावरी।
14. श्री वेस्ट गोदावरी कोआपरेटिव शूगर लि०, मिमाडान, जिला पश्चिमी गोदावरी।
15. दी के० गा० पो० लि०, पो० आ० व्यूर, जिला कृष्णा।
16. वल्लामाली शूगर लि०, पो० आ० वल्लापाना, जिला कृष्णा।
17. दी निजामा शूगर फैक्ट्री लि०, शक्कर नगर, जिला निजामाबाद।
18. दी निजामाबाद क०आ० शूगर फैक्ट्री लि०, निजामाबाद, जिला निजामाबाद।
19. दी चित्तूर कोआपरेटिव शूगर लि०, पो० आ० तमावामापावे, चित्तूर, जिला चित्तूर।
20. श्री निजाम कोआपरेटिव शूगर लि०, पो० आ० तमावामापावे, चित्तूर, जिला चित्तूर।
21. मैसर्स विजयरामा भूदापेठी एग्रीकल्चरल एण्ड इण्डस्ट्रीयल सोसाइटी लि०, पो० आ० भीमामिगी, जिला विशाखापटनम।
22. मैसर्स कुडुपा कोआपरेटिव शूगर फैक्ट्री लि०, दारा रमेश टाकीज, कुडुपा (समीप घेसर, जिला कुडुपा)।
23. मैसर्स श्री वेंकटेश्वर कोआपरेटिव शूगर फैक्ट्री लि०, (निशानी) पो० आ० मागुलमण्डयाम, जिला चित्तूर।
24. मैसर्स निजाम शूगर फैक्ट्री लि०, पो० आ० मिरयालगुडा, जिला नेलगोण्डा।
25. मैसर्स कोयूर कोआपरेटिव शूगर फैक्ट्री लि०, पोथीरेड्डी पालम (पोस्ट) व्यूर तालुक, जिला चित्तूर।
26. मैसर्स निजाम शूगर फैक्ट्री लि०, पंगो के निवाट, पो० आ० त्रिंजुपुर, जिला अन्नलपूर (आन्ध्र प्रदेश)।

तमिलनाडु

1. दी अम्बूर कोआपरेटिव शूगर मिल्स लि०, कृष्णपट्टेयट अम्बूर पो० आ०, जिला नार्थ अरकाट।
2. दी मदलकम कोआपरेटिव शूगर मिल्स लि०, पो० आ० पेडालम, जिला चिन्नलपुट।
3. ई० आई० डी० पैरी लि०, बैलीकुरुयन पो० आ०, जिला अरकाट।
4. वी साउथ इंडिया स्टील एंड शूगर लि०, मण्डीयामपाकम, बिल्लुपुरम, तालुक, जिला दक्षिणी अरकाट।
5. अरुणा शूगर लि०, पेन्नाडम, जिला दक्षिणी अरकाट।
6. कालाकुरियी कोआपरेटिव शूगर मिल्स लि०, पो० आ० पुविल थुरीपट्ट, जिला दक्षिणी अरकाट।
7. श्री अरुन शूगर लि०, पो० आ० बदापक्षिमिलम, जिला तंजीर।
8. कोठारी शूगर एण्ड कैमिकल्स लि०, लालवुडी, जिला तिरुचिरापल्ली।
9. कावेरी शूगर एण्ड कैमिकल्स लि०, कावेरी फैक्ट्री पटीवाय-टोनाटा, जिला तिरुचिरापल्ली।

10. दी दक्खन शूगर एण्ड आबकारी क० लि०, पो० आ० पुआलूर शूगर फैक्ट्री, जिला तिरुचिरापल्ली।
11. दी सालेम कोआपरेटिव शूगर मिल्स लि०, मोहनूर बाया करम्प, जिला सालेम।
12. दी शक्ति शूगर लि०, शक्तिनगर, पो० आ० उरुंग, जिला कोयम्बतूर।
13. अमरावती कोआपरेटिव शूगर मिल्स लि०, कृष्णापुरम ईस्ट, जिला कोयम्बतूर।
14. दी मकुरा शूगर लि०, पणडोगपुरम, पो० आ०, जिला मद्राई।
15. दी नेप्पल कोआपरेटिव शूगर मिल्स लि०, मद्रा, अल्लानालूर, पोस्ट, जिला मद्राई।
16. दी धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव शूगर मिल्स लि०, पायाकोट, जिला धर्मपुरी।
17. मैसर्स तिरुपतूर शूगर लि०, तिरुपतूर, जिला नार्थ अरकाट।
18. मैसर्स वैगोर कोआपरेटिव शूगर मिल्स लि०, डी-5, गाव अनुनवाली, मुहियाथ्राम तालुक, जिला नार्थ अरकाट।
19. मैसर्स तमिलनाडु शूगर कार्पोरेशन लि०, थन्जावर, जिला थन्जावर।
20. मैसर्स पवार शूगर लि०, पो० आ० वेनपरी, जिला नार्थ अरकाट।

पांडिचेरी

1. मू हरिजन शूगर मिल्स पो० क० लि०, सबरर (अरियार) पांडिचेरी।

उड़ीसा

1. असका कोआपरेटिव शूगर इंडस्ट्रीज लि०, पो० आ०, असका, जिला गुंजम।
2. जेपुर शूगर क० लि०, पो० आ० रायागड, जिला कोरापुट।
3. मैसर्स दी वारगड कोआपरेटिव शूगर मिल्स लि०, पो० आ० वारगड, जिला गम्बलपुर।

असम

1. आसाम कोआपरेटिव शूगर मिल्स लि०, पो० आ० बरुआ बामुनगांव, जिला शिवसागर।
2. मैसर्स आसाम इंडस्ट्रियल डिक्लरमेंट कार्पोरेशन लि०, कलाचल रोड, गोहाटी-3 स्थिति चांगीला, जिला कछार।

नागालैण्ड

1. नागालैण्ड शूगर मिल्स लि०, दीमापुर (नागालैण्ड)

पश्चिमी बंगाल

1. दी रामुंगर फेड एण्ड शूगर क० लि०, पो० आ० प्लासी, जिला नाडला।
2. मैसर्स अहमदपुर शूगर मिल्स, अहमदपुर, जिला बोरभूम।

केरल

1. दी ट्रावनकोर शूगर एण्ड कैमिकल्स लि०, पम्मा रोडर फैक्ट्री, निरावला, पो० आ० जिला त्रिक्लन।
2. मन्नम शूगर मिल्स कोआपरेटिव लि०, पो० आ० 1324-पंडालम, पो० आ०, जिला अल्लेपी।
3. दी कोआपरेटिव शूगर लि०, चित्तूर, पो० आ० मामनपाय, जिला पालघाट।

[सं० 1-51/79-एम० पो० आई० (उम्क-2) (ड)]

G.S.R. 700(E)/Ess. Com./Sugar.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3C) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) This order may be called the Sugar (Price Determination for 1979-80 Production) Order, 1979.

(2) It shall come into force at once.

2. Price of Sugar Produced in 1979-80 Season.—The Central Government hereby determines the prices specified in columns (2) to (7) of Schedules I and II hereto annexed, as the prices payable for the Indian Sugar Standard (ISS) grades of sugar mentioned therein, packed in 'A' Twill new gunny bags and produced in 1979-80 by all vacuum pan sugar factories situated in the areas specified in the corresponding entry in column (1) of the said Schedules, that is to say, the factories specified in the Schedule III hereto annexed, and required to be supplied to the persons, organisations of State Governments specified in the Order made by the Central Government under sub-clause (1) of clause 2 of the Levy Sugar Supply (Control) Order, 1979 for delivery at buyer's option into (i) railway wagons and (ii) the buyer's carts, lorries or other means of transport at the factory gate/factory godown, respectively:

Provided that, where a sugar factory is situated at a distance exceeding five kilometers from the nearest railway station or an out agency of the railway or from the godown outside the factory not connected by rail, the producer may charge an additional one paisa per quintal of sugar, per kilometer, beyond five kilometers of the distance between the

sugar factory and such railway station or out agency of the railway, in case of despatches by rail or between the sugar factory and such godown in case of delivery ex-godowns.

Explanation.—In this order:—

- (a) the prices specified in columns (2) to (7) of Schedules I and II aforesaid do not include the duty of excise, additional duty of excise in lieu of sales tax, and the special duty of excise, which the producer can recover, at the rate in force at the relevant time, in addition to the prices as determined by this Order.
- (b) the prices specified in columns (2) to (7) of Schedule I aforesaid include, transport from factory godowns and loading, at buyer's option, into railway wagons at the railway station or siding generally used by the producer and including siding or wagon hauling, dunnage and other incidentals.
- (c) the prices specified in columns (2) to (7) of Schedule II aforesaid include, transport from factory godown, and loading of sugar, at buyer's option, into carts, lorries or other means of transport at the factory gate/factory godown and include all other incidentals.
- (d) the Indian Sugar Standard grades (ISS grades) mean the grades represented by the Standard sealed samples of sugar in bottles issued by the Director, National Sugar Institute, Kanpur conforming to the standards prescribed by the Indian Standards Institution.

SCHEDULE I

Prices for delivery into railway wagons (Rupees per quintal), Grade-wise for I.S.S. Grades (excluding excise duty)

Zone	Indian Sugar Standards (I.S.S.)			Grades of Sugar		
	A—30 B—30 C—30	D—30	E—30	A—29 B—29 C—29	D—29	E—29
1	2	3	4	5	6	7
1. Punjab	228.00	226.85	226.30	227.00	226.00	225.50
2. Haryana	229.29	228.14	227.59	228.29	227.29	226.79
3. Rajasthan	264.05	262.90	262.35	263.05	262.05	261.55
4. West Uttar Pradesh	234.49	233.34	232.79	233.49	232.49	231.99
5. Central Uttar Pradesh	237.15	236.00	235.45	236.15	235.15	234.65
6. East Uttar Pradesh	280.57	279.42	278.87	279.57	278.57	278.07
7. North Bihar	262.45	261.30	260.75	261.45	260.45	259.95
8. South Bihar	314.75	313.60	313.05	313.75	312.75	312.25
9. Gujarat	210.45	209.30	208.75	209.45	208.45	207.95
10. Madhya Pradesh	256.77	255.62	255.07	255.77	254.77	254.27
11. Maharashtra	214.88	213.73	213.18	213.88	212.88	212.38
12. Karnataka	235.45	234.30	233.75	234.45	233.45	232.95
13. Andhra Pradesh	227.43	226.28	225.73	226.43	225.43	224.93
14. Tamil Nadu and Pondicherry	243.92	242.77	242.22	242.92	241.92	241.42
15. Assam, Nagaland, Orissa and West Bengal	252.02	250.87	250.32	251.02	250.02	249.52
16. Kerala and Goa	246.52	245.37	244.82	245.52	244.52	244.02

SCHEDULE-II

Prices for delivery into buyer's carts, lorries or other means of transport at the factory gate/factory godown (Rupees per quintal)

Grade-wise for ISS grades (exclusive of excise duty).

Zone	Indian Sugar Standard			(ISS) Grades of Sugar		
	A—30	D 30	E—30	A—29	D—29	E—29
	B—30			B—29		
	C—30			C—29		
1	2	3	4	5	6	7
1. Punjab	227.78	226.63	226.08	226.78	225.78	225.28
2. Haryana	229.01	227.86	227.31	228.01	227.01	226.51
3. Rajasthan	263.85	262.70	262.15	262.85	261.85	261.35
4. West Uttar Pradesh	234.29	233.14	232.59	233.29	232.29	231.79
5. Central Uttar Pradesh	236.95	235.80	235.25	235.95	234.95	234.45
6. East Uttar Pradesh	280.36	279.21	278.66	279.36	278.36	277.86
7. North Bihar	262.37	261.22	260.67	261.37	260.37	259.87
8. South Bihar	314.67	313.52	312.97	313.67	312.67	312.17
8. Gujarat	210.35	209.20	208.65	209.35	208.35	207.85
10. Madhya Pradesh	256.60	255.45	254.90	255.60	254.60	254.10
11. Maharashtra	214.58	213.43	212.88	213.58	212.58	212.08
12. Karnataka	235.27	234.12	233.57	234.27	233.27	232.77
13. Andhra Pradesh	227.16	226.01	225.46	226.16	225.16	224.66
14. Tamil Nadu and Pondicherry	243.82	242.67	242.12	242.82	241.82	241.32
15. Assam, Nagaland, Orissa and West Bengal	252.02	250.87	250.32	251.02	250.02	249.52
16. Kerala and Goa	246.52	245.37	244.82	245.52	244.52	244.02

SCHEDULE III

PUNJAB

1. The Morinda Cooperative Sugar Mills Limited, Morinda, District Rupar.
2. The Jagatjit Sugar Mills Company Limited, Phagwara, District Kapurthala.
3. The Malwa Sugar Mills Company Limited, Dhuri, District Sangrur.
4. The Janta, Cooperative Sugar Mills Limited, Bhogpur, P.O. District, Jullundur.
5. The Doaba Cooperative Sugar Mills Limited, Nawanshahr, District, Jullundur.
6. The Batala Cooperative Sugar Mills Limited, Batala, District Gurdaspur.

HARYANA

1. The Saraswati Sugar Mills, P. O. Yamunanagar, District Ambala.
2. The Haryana Cooperative Sugar Mills Limited, Rohtak, Unit P. O. District Rohtak.
3. The Panipat Cooperative Sugar Mills Limited, Panipat, P.O. District Karnal.
4. M/s. Karnal Cooperative Sugar Mills Limited, P. O. Karnal, District Karnal.
5. M/s. Sonapat Cooperative Sugar Mills Limited, P. O. Sonapat, District Sonapat.

RAJASTHAN

1. The Mewar Sugar Mills Limited, Bhupalsagar, District Chitorgarh.
2. The Ganganagar Sugar Mills Limited, Sri Ganganagar P.O. District Sri Ganganagar.
3. Sri Keshoraipatan Sahakari Sugar Mills Limited, P.O. Keshoraipatan, District Bundi.

WEST UTTAR PRADESH

1. Modi Industries Limited, Modinagar, District Meerut.
2. The U.P. State Sugar Corporation Limited, Unit Mohiuddinpur, P. O. Mohiuddinpur, District Meerut.
3. Jaswant Sugar Mills Limited, Meerut City, District Meerut.

4. Daurala Sugar Works, Daurala, District Meerut.

5. The U. P. State Sugar Corporation Limited, Unit Sakhoti Tanda, P.O. Sakhoti Tanda, District Meerut.

6. Mawana Sugar Works, Mawana, District Meerut.

7. The Bagpat Cooperative Sugar Mills Limited, P. O. Bagpat, District Meerut.

8. M/s. Ramala Sahakari Chini Mills Limited, P. O. Ramala, District Meerut.

9. The Simbhaoli Sugar Mills Private Limited, P. O. Simbhaoli, District Meerut.

10. The Triveni Engineering Works Limited, Sugar Unit, The Upper India Sugar Mills, Khatauli, District Muzaffarnagar.

11. Swarup Vegetable Products Industries Limited, Mansurpur, District Muzaffarnagar.

12. The Amritsar Sugar Mills Company Limited, Rohanakalan, P. O. Rohana Mills, District Muzaffarnagar.

13. The Upper Doab Sugar Mills Limited, Shamli, District Muzaffarnagar.

14. The Pannijee Sugar and General Mills Company, Panninagar, District Bulandshahr.

15. Shri Janki Sugar Mills and Company, Doiwala, District Dehradun.

16. Gangeshwar Limited, Deoband, District Saharanpur.

17. The Lord Krishna Sugar Mills Limited, Saharanpur, District Saharanpur.

18. Kisan Cooperative Sugar Factory Limited, P. O. Sarsawa, District Saharanpur.

19. Rai Bahadur Narain Singh Sugar Mills Private Limited, Lhaksar, District Saharanpur.

20. The Mahalakshmi Sugar Mills Company Limited, Iqbalpur, P. O. District Saharanpur.

21. Kisan Sahkari Chini Mills Ltd., Anoopshahr, P. O. Jehangirabad, District Bulandshahr.

CENTRAL UTTAR PRADESH

1. Shiv Prasad Banarajdas Sugar Mills, Bijnor, District Bijnor.

2. Upper Ganges Sugar Mills Limited, Seohara, District Bijnor.

3. Dhampur Sugar Mills Limited, P. O. Dhampur, District Bijnor.
4. The Ajudhia Sugar Mills, P. O. Rajaka Sahaspur, District Moradabad.
5. Kundan Sugar Mills Private Limited, Amroha, District Moradabad.
6. Raza Buland Sugar Company Limited, P. O. Rampur, District Rampur.
7. H. R. Sugar Factory Private Limited, Bareilly, District Bareilly.
8. The Kesar Sugar Works Limited, Behari, District Bareilly.
9. Rosa Sugar Works of Carew and Company Limited, Rosa, District Shahjhanpur.
10. L. H. Sugar Factories Limited, Pilibhit District Pilibhit.
11. The Kisan Cooperative Sugar Factory Limited, Majhola, District Pilibhit.
12. L. H. Sugar Factories and Oil Mills Private Limited, Kashipur, District Nainital.
13. The Bazpur Cooperative Sugar Factory Limited, Bazpur, District Nainital.
14. The Kichha Sugar Company Limited, Kichha, District Nainital.
15. The Neoli Sugar Factory, Manpurnagar, P. O. Neoli, District Etah.
16. The Oudh Sugar Mills Limited, Hargaon, District Sitapur.
17. The Lakshmiji Sugar Mills Private Limited, Maholi, District Sitapur.
18. M/s. Kisan Sahakari Chini Mills Limited P. O. Nadehi, District Nainital.
19. The Seksaria Biswan Sugar Factory Private Limited, Biswan, District Sitapur.
20. The Hindustan Sugar Mills Limited, Golagokaranath, District Kheri.
21. The Gobind Sugar Mills Limited, P. O. Aira Estate, District Kheri.
22. Sharda Sugar & Industries Limited, P. O. Box No. 30, Palia District Kheri.
23. The Lakshmi Sugar and Oil Mills Limited, Hardoi, District Hardoi.
24. The Kisan Sahkari Chini Mills Limited, Kaimganj, District Farrukhabad.
25. Kisan Sahkari Chini Mills Ltd., Setha (Harduaganj) P. O. Setha, District Aligarh.
26. M/s. Chhata Sugar Company Limited, P. O. Chhata, District Mathura.
27. M/s. Chandpur Sugar Company Limited, P.O. Chandpur, District Bijnor.
28. M/s. Rudra Bilas Kisan Sahkari Chini Mills Limited, P. O. Bhaspur, District Rampur.
29. M/s. Bisalpur Kisan Sahkari Chini Mills Limited, P. O. Bisalpur, District Pilibhit.
30. M/s. Experimental Sugar Factory (National Sugar Institute) P. O. Kalyanpur, Kanpur.
31. M/s. Kisan Sahkari Chini Mills Limited, Budaun, P. O. District Budaun.

EAST UTTAR PRADESH

1. The Ratna Sugar Mill's Company Limited, Shahganj, District Jaunpur.
2. K. M. Sugar Mills Private Limited, Motinagar Sugar Mills, P. O. Motinagar, District Faizabad.
3. The U. P. State Sugar Corporation Limited, Unit Barabanki, District Barabanki.
4. The Burhwal Sugar Mills Company Limited, Burwal, District, Barabanki.
5. R. B. Lachmandas Sugar and General Mills Private Limited, P. O. Jarwal Road, District Bahraich.
6. Balrampur Sugar Company Limited, Balrampur Factory Branch Balrampur, District Gonda.
7. Tulsipur Sugar Company Limited, Tulsipur Factory Branch, P. O. Tulsipur, District Gonda.

8. The Nawabganj Sugar Mills Company Limited, P. O. Sugar Factory, Nawabganj, District Gonda.
9. The Sakaria Sugar Mills Private Limited, P. O. Bahnan, District Gonda.
10. The Basti Sugar Mills Company Limited, P. O. Walterganj, District Basti.
11. The Basti Sugar Mills Company Limited, P. O. Basti, District Basti.
12. The Madho Mahesh Sugar Mills Private Limited, P. O. Munderwa, District Basti.
13. Shri Anand Sugar Mills, P. O. Khalilabad, District Basti.
14. The Ganesh Sugar Mills, P. O. Anandnagar, District Gorakhpur.
15. Saraya Sugar Mills Private Limited, Sardarnagar, P. O. District Gorakhpur.
16. The U. P. State Sugar Corporation Ltd., P. O. Pipraich, District Gorakhpur.
17. The Punjab Sugar Mills Company Limited, P. O. Ghughli, District Gorakhpur.
18. Mahabir Sugar Mills Private Limited, P. O. Siswabazar, District Gorakhpur.
19. The U. P. State Sugar Corporation Limited, Unit Khadda, P. O. Razabazar Khadda, District Deoria.
20. Lakshmi Devi Sugar Mills Private Limited, Chituauni, P. O. District Deoria.
21. The Shankar Agro Industries Limited, Captainganj, P. O. District Deoria.
22. The Ishwari Khetan Sugar Mills Limited, Lakshmi-ganj P. O., District Deoria.
23. The Maheshwari Khetan Sugar Mills Private Limited, P. O. Ramkola, District Deoria.
24. Gangeshwari Limited, Ramkola, District Deoria.
25. Cawnpur Sugar Works Limited, Padrauna Factory Branch, P. O. Padrauna, District Deoria.
26. Cawnpur Sugar Works Limited, Kathkuiyan Factory Branch, P. O. Kathkuiyan, District Deoria.
27. The United Provinces Sugar Company Limited, P. O. Seorahi, District Deoria.
28. Shree Sitaram Sugar Company Limited, P. O. Baitalpur, District Deoria.
29. Cawnpore Sugar Works Limited, Gauri Factory Branch P. O. Gauri Bazar, District Deoria.
30. Deoria Sugar Mill's Limited, Deoria, P. O. District Deoria.
31. U. P. State Sugar Corporation Limited, Unit Bhatni, P. O. Bhatni, District Deoria.
32. The Partappur Sugar Mills Limited, P. O. Partappur, District Deoria.
33. The Kashi Sahakari Chini Mills Limited, Aurai, District Varanasi.
34. The Kisan Sahakari Chini Mills Limited, Rasra, District Ballia.
35. The Kisan Sahakari Chini Mills Limited, Azamgarh, District Azamgarh.
36. M/s. Nandganj-Sihori Sugar Company Limited, Village Sihori, P. O. Nandganj, Tah. Saidpur, District Ghazipur.
37. M/s. Nandganj-Sihori Sugar Company Limited, Daryapur Unit, P. O. Daryapur, District Rae-Bareilly.

NORTH BIHAR

1. North Bihar Sugar Mills Limited, Bagaha, P. O. Naraipur, District Champaran.
2. Harinagar Sugar Mills Limited, P. O. Harinagar, District Champaran.
3. The New Swadeshi Sugar Mills Limited, P. O. Narkatiaganj, District Champaran.
4. Champaran Sugar Company Limited, Barrah Factory Branch, P. O. Barachakia, District Champaran.
5. Shree Krishna Gyandday Sugar Limited, P. O. Lauriya, District Champaran.
6. Motilal Padampat Udyog Limited (Sugar Mills Branch) Majhaullia, District Champaran.
7. The Sagauli Sugar Works Private Limited, P. O. Sagauli, District Champaran.

8. Gobind Sugar Mills Limited, Lessee of Shri Hanuman Sugar and Industries Limited, P. O. Motibari, District Champaran.
9. Champaran Sugar Company Limited, Chanpatia Factory Branch, P. O. Chanpatia, District Champaran.
10. Belund Sugar Limited, P. O. Righa, District Muzaffarpur.
11. The Motipur Sugar Factory Private Limited, P. O. Motipur, District Muzaffarpur.
12. Sitaipore Sugar Works Limited, P. O. Garual, District Muzaffarpur.
13. Tirhut Cooperative Sugar Factory Limited, Ryam Factory, P. O. Darbhanga.
14. Lohat Sugar Works of the Darbhanga Sugar Company Limited, P. O. Lohat, District Darbhanga.
15. Sakri Sugar Works of the Darbhanga Sugar Company Limited, P. O. Sakri, District Darbhanga.
16. Samastipur Central Sugar Company Limited, Samastipur Factory Branch P. O. Samastipur, District Darbhanga.
17. New India Sugar Mills Limited, Hassanpur Road, P. O. Hassanpur Sugar Mills, District Darbhanga.
18. Sasa Musa Sugar Works Private Limited, P. O. Sasa Musa, District Saran.
19. The Vishnu Sugar Mills Limited, P. O. Vishnu Sugar Mills, Gopalganj, District Saran.
20. Shree Krishna Gyanoday Sugar Limited, Hatbua, P.O. Mirganj, District Saran.
21. Bharat Sugar Mills Limited, P. O. Sidhwalia, District Saran.
22. Cawnpore Sugar Works Limited, Marhowrah Factory Branch, P. O. Marhowrah, District Saran.
23. New Savan Sugar Mills P. O. Siwan, District Siwan.
24. Shree Krishna Gyanoday Sugar Limited, P. O. Siwan, District Siwan.
25. The Behar Sugar Works, Branch of the Industrial Corporation Limited, P. O. Pachrukhi, District Saran.
26. Purnea Cooperative Sugar Factory Limited, Banman-khi (Bihar).

SOUTH BIHAR

1. South Bihar Sugar Mills Limited, P. O. Bihta, District Patna.
2. Guraru Chini Mills, P.O. Guraru Mills, District Gaya.
3. M/s. Mohini Sugar Mills Limited, Warisaliganj, District Gaya.

GUJARAT

1. Shri Khedut Sahakari Khand Udyog Mandli Limited, Sadar Bag, Bardoli, District Surat.
2. Shri Madhi Vibhag Khand Udyog Sahakari Mandli Limited, Madhi, District Surat.
3. Shri Chalthan Vibhag Khand Udyog Sahakari Mandli Limited, P.O. Chalthan (Western Railway), District Surat.
4. The Sahakari Khand Udyog Mandli Limited, Gandevi via Billimora, District Bulsar.
5. Shree Bilashwar Khand Udyog Khedut Sahakari Mandli Limited, P. O. Kodinar, District Amreli.
6. M/s. Shri Amreli Sahakari Krishi Khand Udyog Limited, Gavadka Village, District Amreli.
7. Shri Una Taluka Sahakari Khand Udyog Mandli Limited, P. O. Una (Serath) District Junagadh.
8. Charotar Sahakari Khand Udyog Limited, Palaj, Taluka Petlad, District Karia.
9. M/s. Shree Sayan Vibhag Sahakari Khand Udyog Mandli Limited, P. O. Sayan, Taluka Olpad, District Surat.
10. M/s. Shree Maroli Vibhag Khand Udyog Sahakari Mandli Limited, P. O. Maroli, District Valsad.
11. M/s. Shiv Valsad Sahakari Khand Udyog Mandli Limited, Parnera Pardi, District Valsad.
12. M/s. Shree Talala Taluka Sahakari Khand Udyog Mandli Limited, P.O. Talala (Gir), District Junagadh.

13. M/s. Shri Sardar Vallabhbhai Patel Khand Udyog Cooperative Society Limited, Jamnavad Road, Dhoraji, District Rajkot.

MADHYA PRADESH

1. The Gwalior Sugar Company Limited, P. O. Dabra, District Gwalior.
2. The Jiwaji Rao Sugar Company Limited, P. O. Daluda, District Mandesaur.
3. Jaora Sugar Mills Private Limited, P. O. Jaora, District Ratlam.
4. Seth Govindram Sugar Mills, P. O. Mehidpur Road, District Ujjain.
5. The Bhopla Sugar Industries Limited, Schore, District Schore.
6. The Morena Mandal Sahakari Shakkar Karkhana Limited, Kailaras, District Morena.

MAHARASHTRA

1. The Ravalgaon Sugar Farm Limited, P. O. Ravalgaon, District Nasik.
2. Girna Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P. O. Malegaon, District Nasik.
3. Niphad Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P. O. Bhausedebnagar, District Nasik.
4. The Sanjivani (Takli) Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P. O. Kopergaon, District Ahmednagar.
5. The Kopergaon Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P. O. Kolpewadi, District Ahmednagar.
6. The Godavari Sugar Mills Limited, P. O. Sakarwadi, District Ahmednagar.
7. The Godavari Sugar Mills Limited, P. O. Lakshmiwadi, District Ahmednagar.
8. Shree Changdeo Sugar Mills Limited P. O. Changdeonagar, District Ahmednagar.
9. Shri Ganesh Sahakari Sakhar Karkhana Limited Ganeshnagar, P. O. Rajangaon Khurd, District Ahmednagar.
10. Ashok Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Ashoknagar, P. O. Shrirampur, District Ahmednagar.
11. Belapur Sugar and Allied Industries Limited, Hari-gaon, District Ahmednagar.
12. The Maharashtra Sugar Mills Limited, P. O. Tilaknagar, District Ahmednagar.
13. The Pravara Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P. O. Pravaranagar, District Ahmednagar.
14. The Rahuri Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Shrishivajinagar, Rahuri Factory Branch, P. O. District Ahmednagar.
15. The Shrigonda Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Shrigonda, P. O. Belvandi, District Ahmednagar.
16. Sangamner Bhag Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P. O. Sangamner, District Ahmednagar.
17. Shridhyaneshwar Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Bhandra BK Tal. Newasa, District Ahmednagar.
18. Gangapur Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P. O. Ragtrunathnagar, Taluka Gangapur, District Aurangabad.
19. M/s. Sidheshwar Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P. O. Silod, District Aurangabad.
20. Kamnad Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Kamnad, District Aurangabad.
21. M/s. Vineyak Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Parsoda, Tal. Vijapur, District Aurangabad.
22. Shri Someshwar Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Nira, District Poona.
23. The Malegaon Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P. O. Malegaon, B. K. Taluka Baromanti, District Poona.
24. Shri Chhatrapati Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P. O. Bhavaninagar, Taluka Indapur, District Poona.
25. Yeshwant Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Theur, P. O. Theur, Taluka Haveli, District Poona.
26. Walchandnagar Industries Limited, P. O. Walchandnagar, District Poona.
27. Yeshwant Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P. O. Akluj, District Sholapur.

28. The Saswad Mali Sugar Factory Limited, P. O. Malinagar, District Sholapur.
29. Birma Sugar Syndicate Limited, P. O. Shreepur, District Sholapur.
30. Shree Shankar Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Sadashivnagar, Taluka Malshiras, District Sholapur.
31. Shree Sidheswar Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Kumathe, Taluka North Sholapur, District Sholapur.
32. The Phaltan Sugar Works Limited, P. O. Sakharwadi, District Satara.
33. Shriram Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P. O. Phaltan, District Satara.
34. Krishna Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Rethare Budruk, P. O. Shivnagar, District Satara.
35. Satara Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Bhunj, District Satara.
36. Baasaheb Desai Sahakari Karkhana Limited, Marali, Tal. Putan, District Satara.
37. Sahyadri Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Yeshwant Nagar, Tal. Kard, District Satara.
38. Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P. O. Sangali, District Sangali.
39. The Walwa Taluka Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Sakharale Islampur Post Office, District Sangali.
40. Vishwas Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Yeshwantnagar, Taluka Shirala, District Sangali.
41. Shree Warana Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P. O. Waranagar, District Kolhapur.
42. The Kolhapur Sugar Mills Limited, Kasaba Bavada, P. O. Kolhapur, District Kolhapur.
43. Shree Panchanganga Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P. O. Ichalkaranji, District Kolhapur.
44. The Bhogwati Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P. O. Shahunagar (Parite), District Kolhapur.
45. Khumbi Kesari Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Kunditre, P. O. Koparde, Taluka Karveer, District Kolhapur.
46. Shri Dudhganga Vedganga Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Bidri Post Office Mouninagar, Taluka Kagal, District Kolhapur.
47. Shree Datta Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Asurle, Tehsil Panhela, District Kolhapur.
48. Shree Datta Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Shirol, Taluka Shirol, District Kolhapur.
49. Terna Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P. O. Dhoki, District Osmanabad.
50. M/s. Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Killari, District Osmanabad.
51. Shri Satpuda Tapi Parisar Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Lonkhoda, Taluka Shahada, District Dhulia.
52. Shri Panzarakan Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Bhadna, Taluka Sakri, District Dhulia.
53. Vasant Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Pusad, District Yeotmal.
54. Kalambar Vibhag Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Kalambar, Taluka Kandhar, District Nanded.
55. Marathawada Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Post Office Dongarkada, Taluk Kalamnuri, District Parbhani.
56. Ambajogai Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Ambajogai, District Bhir.
57. Madhukar Sahakari Sakhar Karkhana, Maryadi, Nhevi Marg, Faizpur, District Jalgaon.
58. M/s. Vasant Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Kasoda, Taluka Erandole, District Jalgaon.
59. M/s. Jai Bhavani Cooperative Sugar Factory Limited, P. O. Georai, District Bhir.
60. M/s. Daulat Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Yeshwantnagar, Taluka Chandgad, District Kolhapur.
61. Belganga Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P. O. Bhoras, Taluka Chalisgaon, District Jalgaon.

62. M/s. Shri Vridheshwar Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Kasaba Pimpalgaon, Taluka Pathardi, District Ahmednagar.
63. M/s. Shri Jagdamba Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Rashim, Tehsil Karjat, District Ahmednagar.
64. M/s. Jijamata Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Dasarbid, Tq. Mehkar, District Buldana.
65. M/s. Karmaveer Kakasaheb Wagh Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Kakasaheb Nagar, Post Ranwad, Tal. Niphad, District Nasik.
66. M/s. Kadwa Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P. O. Materewadi, Tal. Dindori, District Nasik.
67. M/s. Nasik Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Palse, District Nasik.
68. M/s. Mula Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P. O. Sonai, Tal. Newasa, District Ahmednagar.
69. M/s. Kada Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P. O. Kada, Tal. Ashti, District Beed.
70. M/s. Gadhinglaj Taluka Sahakari Sakhar Karkhana Limited, P. O. Gadhinglaj, District Kolhapur.

GOA

1. Sanjivani Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Usgaon, Tisk, Goa.

KARNATAKA

1. The Ugar Sugar Works Ltd., P. O. Ugar Khand, District Belgaon.
2. Hiranyakeshi Sahakari Sakhar Karkhana, Niyamit, P. O. Sangeshwar, District, Belgaon.
3. Shri Malaparbha Cooperative Sugar Factory Ltd., M. K. Hubli, District Belgaum.
4. M/s. Shree Doodhaganga Krishna Sahakari Sakhar Karkhana Niyamit, Chikodi, District Belgaum.
5. The Salar Jung Sugar Mills (A division of India Sugars and Refiners Ltd.) P.O. Munirabad, District Raichur.
6. The India Sugar and Refiners Ltd., P. O. Hospet, District Bellary.
7. The Kampli Cooperative Sugar Factory Ltd., P. O. Kampli, District Bellary.
8. Kothari Sugars & Chemicals Ltd., P. O. Siruguppa, District Bellary.
9. Shri Mukesh Textile Mills Private Ltd. (Thungabhadra Sugar Works) P. O. Shimoga, District Shimoga.
10. Pandavapura Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P. O. Pandavapur, District Mandya.
11. The Mysore Sugar Company Ltd., P. O. Mandya, District Mandya.
12. Chamundeshwari Sugar Ltd., Kalamundwana Daddi, District Mandya.
13. Gauribidanur Sahakari Sakhare Karkhana Ltd., Gauribidanur P. O. District, Kolar.
14. Bidar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Bidar, District Bidar.
15. Vanivilasa Cooperative Sugar Factory Ltd., Hiriyur, Chitradurga District.
16. Devangere Sugar Co. Ltd., Kukkarada, Devangere Taluk, District Chitradurga.
17. Somaiya Sugar Works, Semmerwadi Via Mahalingpur, District Bijapur.
18. Sri Mahadeswara Sahakari Sakhare Karkhana Ltd., Kollegal District.
19. Gangawati Sugars Ltd., Sriramnagar Post, District Raichur.
20. Raibhag Sahakari Sakhare Karkhane Niyamit, P.O. Budihal, Taluk Raibhag, District Belgaum.
21. M/s. Bhadra Sahakari Sakhare Karkhane Niyamit, Doddabathi, Davangere Tq., District Chitradurga.

ANDHRA PRADESH

1. Shree Rama Sugars and Industries Ltd., Sethanagaram, District, Srikakulam.
2. Sri Rama Sugars and Industries Ltd. Bobbili, District Srikakulam.

3. Amadalavalasa Cooperative Agricultural and Industrial Society Ltd., P. O. Amadalavalasa, District Srikakulam.
4. Anakapalle Cooperative Agricultural and Industrial Society Ltd., Thummapala, P. O. Anakapalle, District Visakhapatnam.
5. The Etikoppaka Cooperative Agricultural and Industrial Society Ltd., P. O. Etikoppaka, District Visakhapatnam.
6. The Chodavaram Cooperative Sugars Ltd., P. O. Govada, District Visakhapatnam.
7. The Thandava Cooperative Sugars Ltd., P. O. Payakaraopeta, District East Godavari.
8. The Kirlampudi Sugar Mills Ltd., Pithapuram, District East Godavari.
9. The Deccan Sugar and Abkari Co., Ltd., P. O. Samalkot, District Godavari.
10. Sri Sarvaraya Sugars Ltd., Chelluru, District East Godavari.
11. V. V. S. Sugars, P. O. Chegallu, District East Godavari.
12. The Andhra Sugars Ltd., P. O. Tanuku, District West Godavari.
13. The Palakol Cooperative Agricultural and Industrial Society Ltd., P. O. Palakol, District West Godavari.
14. The West Godavari Cooperative Sugars Ltd., Bhimnadole, District West Godavari.
15. Challapalli Sugar Ltd., P.O. Challapalli, District Krishna.
16. The K. C. P. Ltd., Vuyyuru, District Krishna.
17. The Nizam Sugar Factory Ltd., Shakarnagar, District Nizamabad.
18. The Nizamabad Cooperative Sugar Factory Ltd., P. O. Nizamabad, District Nizamabad.
19. The Chittoor Cooperative Sugars Ltd., P. O. T. Savatapalle District Chittoor.
20. The Nizam Sugar Factory, Zahirabad, P. O. Didgi, District Medak.
21. M/s. Vijavarama Gajapeti Agricultural and Industrial Society Limited, P. O. Bheemasingi, District Visakhapatnam.
22. M/s. Cuddapah Cooperative Sugar Factory Ltd., C/o Ramesh Talkies, Cuddapah (Location Near Chennur District Cuddapah).
23. M/s. Nizam Sugar Factory Ltd., P. O. Miyariguda, District Nalgonda.
24. M/s. Kovur Cooperative Sugar Factory Ltd., Pothireddypalam P. O. Kovur Talu, District Nellore.
25. M/s. Sri Venkateswara Cooperative Sugar Factory Ltd., (Tirupati) P. O. Gazulamandam, District Chittoor.
26. M/s. Nizam Sugar Factory Ltd., Near Parigi, P. O. Hindupur, District Anantapur.

TAMIL NADU

1. The Ambur Cooperative Sugar Mills Ltd., Vedapudupet, P. O. Ambur, District North Arcot.
2. Madurantakam Cooperative Sugar Mills Ltd., Padalam, District Chingleput.
3. E. I. D. Parry Limited Nellikuppam, District South Arcot.
4. South India Steel and Sugars Limited, Mundiampakkam, Taluka Villupuram, District South Arcot.
5. Aruna Sugars Limited, Pannadam, District South Arcot.
6. The Kallakurichi Cooperative Sugar Mills Ltd., District Moongilthuraiattu (South Arcot).
7. Thiru Arcoran Sugars Ltd., P. O. Vandapathimangalam, District Tanjore.
8. Kothari Sugars and Chemicals Ltd., Lalgudi, District Tiruchirappalli.
9. Cauvery Sugars and Chemicals Ltd., Cauvery Factory P. O. Pattavaytolai, District Tiruchirappalli.
10. The Deccan Sugar and Abkari Company Ltd. Pugalur Sugar Factory, District Tiruchirappalli.

11. The Salem Cooperative Sugar Mills Ltd., Mahanur via Karur, District Salem.
12. Sakthi Sugars Ltd., Sakthinagar, P. O. Erode, District Coimbatore.
13. Amaravathi Cooperative Sugar Mills Ltd., Krishnapuram East, District Coimbatore.
14. Madura Sugars Ltd., Pandiorajapuram, District Madurai.
15. The National Cooperative Sugar Mills Ltd., Alanganallur P. O. District Madurai.
16. The Dharamapuri District Cooperative Sugar Mills Limited, Palacode, Dharamapuri District.
17. M/s. Tirupattur Sugars Ltd., Tirupattur, District North Arcot.
18. M/s. Vellore Coop. Sugar Mills Ltd., No. D-5, Village, District North Arcot, (Location Thiruvallam, Amuntli Village, Gudiyatham Taluka, Distt. North Arcot).
19. M/s. Tamil Nadu Sugar Corporation Limited, Thanjavur, District Thanjavur.
20. M/s. Palar Sugars Pvt. Ltd., P. O. Mailpatti, Distt. North Arcot.

PONDICHERY

1. New Horizon Sugar Mills Company Ltd., Sacur (Aricur), Pondicherry.

ORISSA

1. Aska Cooperative Sugar Industries Ltd., P. O. Aska, District Ganjam.
2. Jeypore Sugar Co. Ltd., P. O. Rayagadey District Koraput
3. The Bargarh Cooperative Sugar Mills Limited, P. O. Bargarh, District Sambalpur.

ASSAM

1. The Assam Cooperative Sugar Mills Limited, P. O. Barua Bamungaon, District Sibsagar.
2. M/s. Assam Industrial Development Corporation Limited, Kannachal Road, Gauhati-3 (Location Chargola, District Cachar).

NAGALAND

1. Nagaland Sugar Mills Limited, Dimapur (Nagaland).

WEST BENGAL

1. The Ramuggar Cane and Sugar Company Ltd., P. O. Plassey, District Nadia.
2. M/s. Ahmedpur Sugar Mills, Ahmedpur, District Birbhum.

KERALA

1. The Travancore Sugars and Chemicals Ltd., Pumba River Factory, Tiravalla P. O., District Quilon.
2. Mannam Sugar Mills Cooperative Ltd., P. O. 4324-Pandalam P. O., District Alleppy.
3. The Cooperative Sugars Limited, Chittur, P. O. Mamanpara, District, Palghat.

[No. 1-51/79-SPY(DFSK-II)(E)]

सं० का० नि० 701 (अ)/आ० व० / बीसी — केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(i) इस आदेश का नाम बीनो (संचालन पर निर्वन्धन) आदेश, 1979 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. कुछ चीनी के परिवहन पर निर्वन्धन.—कोई व्यक्ति निर्यात कटाह प्रक्रिया द्वारा उत्पादिन चीनी का, केन्द्रीय सरकार या मुख्य निवेशक (चीनी) द्वारा या उस राज्य सरकार द्वारा जिससे चीनी बाहर ले जाई जानी है या उस राज्य की सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस निमित्त जारी किए गए अनुज्ञापत्र के अधीन या उसके अनुसार पर के सिवाय एक राज्य से किसी अन्य राज्य को मड़क, रेल या जलमार्ग द्वारा परिवहन नहीं करेगा या परिवहन करने की प्रस्तावना या प्रतिग्रहण नहीं करेगा ;

परन्तु इस आदेश की कोई बात—

- (i) (क) लेवी चीनी प्रदाय (नियंत्रण) आदेश, 1979, या
- (ख) चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 5 के अधीन जारी किए गए किसी निवेश के अनुसरण में विक्रय के लिए किसी निर्यात कटाह चीनी कारखाने द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य में निर्यात कटाह चीनी कारखाने से किसी अन्य राज्य में किसी मान्यताप्राप्त व्यवहारी द्वारा ; या
- (iii) भूटान को ; भूटान सरकार के किसी नामनिर्देशित द्वारा ; या
- (iv) सरकारी लेखे ; या
- (v) भारतीय खाद्य निगम द्वारा ; या
- (vi) सैनिक जमा पक्ष के अधीन और उनके अनुसार ; या
- (vii) समुद्रयात्रा के दौरान पोत मासघो के रूप में वास्तविक उपभोग के लिए ; या
- (viii) चीनी निर्यात वृद्धि अधिनियम, 1958 (1958 का 30) की धारा 5 के अधीन, कारखाने के स्वामी को, भारतीय चीनी उद्योग निर्यात निगम लिमिटेड के माध्यम से या उसकी ओर से या उसके द्वारा किए जाने वाले प्रभाजन के लिए, किए जाने वाले किसी परिवहन को लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण :—खण्ड (ii) के प्रयोजनार्थ, यदि चीनी का परिवहन, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अधीन जारी किए गए द्वारा-पास के अधीन है तो उसे निर्यात कटाह चीनी कारखाने से किया गया परिवहन समझा जाएगा ।

[सं० 1-51/79-एस पी वार्ड डेस्क-II(ब)]

सी० एन० राघवन, संयुक्त सचिव

G.S.R. 701(E)/Ess. Com./Sugar.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), and clause 6 of the Sugar (Control) Order, 1966, the Central Government hereby makes the following Order, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) This Order may be called the Sugar (Restrictions on Movement) Order, 1979.

(2) It shall come into force at once.

2. Restrictions on transport of certain sugar.—No person shall transport or offer or accept for transport, whether by road, rail or water, any sugar produced by vacuum pan process from one State to another State except under, and in accordance with a permit issued in this behalf by the Central Government or the Chief Director (Sugar) or by the Government of State from which sugar is to be taken out or an officer authorised by the Government of that state :

Provided that nothing in this Order shall apply to the transport of sugar :—

- (i) by a vacuum pan sugar factory for sale in pursuance of a direction issued to it under :—
 - (a) clause 2(1) of Levy Sugar Supply (Control) Order, 1979; or
 - (b) clause 5 of the Sugar (Control) Order, 1966.
- (ii) by a recognised dealer in one State from a vacuum pan sugar factory in another State; or
- (iii) to Bhutan by a nominee of the Government of Bhutan;
- (iv) on Government account; or
- (v) by the Food Corporation of India; or
- (vi) under and in accordance with the military credit notes; or
- (vii) forming part of ships' stores intended for bona fide consumption during voyage; or
- (viii) apportioned to the owner of a factory under section 5 of the Sugar Export Promotion Act, 1958 (30 of 1958), either through or on behalf of, or by, the Indian Sugar Industry Export Corporation Limited.

Explanation.—For the purpose of clause (ii) if the transport of sugar is covered by a gate pass issued under the Central Excise Rules, 1944, it will be treated as transport from vacuum pan sugar factory.

[No. 1-51/79-SPY-(DESK-II)(F)]

C. N. RAGHAVAN, Joint Secy.